

  
**भारत का राजपत्र**  
**The Gazette of India**

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

---

सं. 52] नई दिल्ली, शनिवार, दिसम्बर 27, 2014—जनवरी 2, 2015 (पौष 6, 1936)

No. 52] NEW DELHI, SATURDAY, DECEMBER 27, 2014—JANUARY 2, 2015 (PAUSA 6, 1936)

---

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके  
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

---

भाग I—खण्ड 2

[PART I—SECTION 2]

[(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों व छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं]

[Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Govt. Officers issued by the Ministries of the Govt. of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

राज्य सभा सचिवालय

नई दिल्ली—110001, दिनांक 1 दिसम्बर 2014

सं.आरएस/20/1/2014/130-का.--अधिवर्षिता की आयु प्राप्त कर लेने पर कुमारी जीवन लता, सहायक निदेशक 30 नवम्बर, 2014 के अपराहन से सेवानिवृत्त हो गई हैं।

एस. रंगराजन, संयुक्त निदेशक

---

राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद् सचिवालय

नई दिल्ली, दिनांक 10 दिसम्बर 2014

सं. ए-19014/4/2009-प्रशासन—राष्ट्रपति, डॉ० कंचन लक्ष्मण, जो कि सैंविदागत आधार राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद् सचिवालय में उप-निदेशक के रूप में कार्यरत हैं, को उनके संयुक्त निदेशक पद पर चयन होने के परिणामस्वरूप उन्हें वेतनमान—15,600—39,100/— रु. जमा ग्रेड—पे 7,600/—रु. के पे—बैंड में संयुक्त निदेशक के रूप में नई सैंविदा के आधार पर दिनांक 07 दिसम्बर, 2014 के पूर्वाहन से 05 वर्ष की अवधि के लिए या अगले आदेशों के जारी होने तक, जो भी पहले हो, सहर्ष नियुक्त करते हैं।

एस०कामेश्वर, उप-सचिव,

## अंतरिक्ष विभाग

बैंगलूर - 560 094, दिनांक 9 अक्टूबर 2014

सं. ए. 12021/12/2014-अनु. I—राष्ट्रपति, श्री एस. कुमारस्वामी, भारतीय प्रशासनिक सेवा के सदस्य (एजीएमयू : 91), को अंतरिक्ष विभाग, बैंगलूर में संयुक्त सचिव के रूप में दिनांक 09 अक्टूबर, 2014 के पूर्वाह्न से आगामी आदेश तक नियुक्त करते हैं।

बी.अनिल कुमार, उप सचिव

दिनांक 10 दिसम्बर 2014

सं. ए. 12011/8/2012-अनु. I—राष्ट्रपति, अन्तरिक्ष विभाग श्री एम.गणेश, को संयुक्त निदेशक (लागत) के रूप में 30 अक्टूबर, 2014 के पूर्वाह्न से नियुक्त करते हैं।

बी.अनिल कुमार, उप सचिव

सं. ए. 12021/9/2014-अनु. I—राष्ट्रपति, अन्तरिक्ष विभाग में श्री चिंतामनि मनोहर साने, (भा.ले.प व ले.से. 1993), को संयुक्त सचिव (वित्त) के रूप में 30 अक्टूबर, 2014 के पूर्वाह्न से नियुक्त करते हैं।

बी.अनिल कुमार, उप सचिव

## गृह मंत्रालय

नई दिल्ली-110001, दिनांक 9 दिसम्बर 2014

सं. 01-11014/09/2014-आई0पी0एस0-4—केन्द्र सरकार, सुश्री निशा जेम्स, भा0पु0से0 (ए0जी0एम0 यू0टी0:2013) का विवाह श्री अनूप ए. शेटी, भा0पु0से0 (कर्नाटक:2013) के साथ हो जाने तथा यू.टी. प्रभाग, गृह मंत्रालय एवं कर्नाटक सरकार के सहमति के आधार पर भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग) नियम, 1954 के नियम 5 के उप नियम (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सुश्री निशा जेम्स, भा0पु0से0 (ए0जी0एम0 यू0टी0:2013) का स्थानान्तरण ए.जी.एम.यू.टी. से कर्नाटक के भारतीय पुलिस सेवा संवर्ग में करती है।

अरविन्द गौड़, अवर सचिव

## आपदा प्रबंधन प्रभाग

नई दिल्ली-110001, दिनांक 11 दिसम्बर 2014

सं. 01-14020/3/2013-ए0डी0(सी.डी.)—राष्ट्रपति, श्री देवेन्द्र कुमार शर्मा, उप अग्निशमन सलाहकार, महानिदेशालय (फायर सर्विस, सिविल डिफेंस एवं होमगार्ड) गृह मंत्रालय आर0 के0 पुरम, नई दिल्ली को उसी निदेशालय में दिनांक 08.12.2014 से अगले आदेशों तक प्रोन्नति के आधार पर पे-बैन्ड 4, (रु0 37,400-67,000/- + रु0 8700/- ग्रेड पे) में अग्नि शमन सलाहकार, के पद पर सहर्ष नियुक्त करते हैं।

संजय अग्रवाल, निदेशक (डी0एम0-3)

## कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 3 दिसम्बर, 2014

सं. 39019/02/2014-स्थापना-(ख)---श्रीमती रजनी राजदान की नियुक्ति की अवधि पूरी हो जाने पर उन्होंने 22 नवम्बर, 2014 से संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्षता का पद छोड़ दिया है।

मनीषा भटनागर, अवर सचिव

## वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 01 अक्टूबर 2010

सं0 48(ए-19011/36/2010-ई-1)---राष्ट्रपति द्वारा श्री अनूप के. पुजारी, आई ए एस (कर्ना: 80) को दिनांक 30 सितम्बर, 2010 अपराह्न से अगले आदेशों तक के लिए वाणिज्य विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अधीन संयुक्त सचिव के रैंक तथा वेतनमान में महानिदेशक, विदेश व्यापार के रूप में नियुक्त किया जाता है।

2. श्री अनूप के. पुजारी, महानिदेशक, विदेश व्यापार द्वारा विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1992 के अधीन महानिदेशक, विदेश व्यापार द्वारा प्रयुक्त शक्तियों का प्रयोग किया जाएगा।

एन.के.लखनपाल, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 26 अक्टूबर 2010

सं0 /2010(ए-19011/36/2010-ई-1)---भारत के राजपत्र के भाग I खंड II में प्रकाशित वाणिज्य विभाग की दिनांक 1 अक्टूबर 2010 की अधिसूचना सं0 ए-19011/36/2010-ई.1 के पैरा 1 की अंतिम पंक्ति में "जो भी पहले हो" को 'समाप्त कर दिया गया' माना जाएगा।

एस.के.शर्मा, अवर सचिव

दिनांक 8 दिसम्बर 2014

सं0 58(ए-19011/36/2010-ई-1)---राष्ट्रपति द्वारा श्री अनूप के. पुजारी, आई ए एस (कर्ना:80) को दिनांक 06 दिसम्बर, 2010 अपराह्न से अगले आदेशों तक के लिए वाणिज्य विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अधीन अपर सचिव के रैंक तथा वेतनमान में महानिदेशक, विदेश व्यापार के रूप में नियुक्त किया जाता है।

2. श्री अनूप के. पुजारी, महानिदेशक, विदेश व्यापार द्वारा विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1992 के अधीन महानिदेशक, विदेश व्यापार द्वारा प्रयुक्त शक्तियों का प्रयोग किया जाएगा।

एस.के.शर्मा, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 28 सितंबर 2013

सं.-36/2013(ए-19011/36/2010-स्था.-I)---राष्ट्रपति द्वारा मौजूदा दिशा-निर्देशों में रियायत देते हुए वाणिज्य विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में कार्यरत विदेश व्यापार महानिदेशक श्री अनूप के. पुजारी, आईएएस (कर्नाटक : 80) के कार्यकाल को 28.09.2013 के बाद दिनांक 31.03.2014 तक के लिए बढ़ाया जाता है।

जी.बी.उपाध्याय, उप सचिव

दिनांक 7 मार्च 2014

सं.-15/2014(ए-19011/36/2010-स्था.-I)---राष्ट्रपति द्वारा श्री अनूप के पुजारी, आईएएस (कर्नाटक:80) को उनके द्वारा धारित पद का अस्थायी उन्नयन करके दिनांक 4.3.2014 के पूर्वाह्न से स्व-स्थाने आधार पर वाणिज्य विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में सचिव के रैंक तथा वेतन में विदेश व्यापार महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया जाता है।

जी.बी.उपाध्याय, उप सचिव

(औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक दिसम्बर 2014

सं. 1(7)/2014—विस्फोटक—श्री टी. आर. थॉमस, मुख्य विस्फोटक नियंत्रक, अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर पेट्रोलियम एवं विस्फोटक सुरक्षा संगठन (पेसो), औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग, से 30 नवम्बर 2014 को दोपहर बाद, सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो गए।

राजेश कुमार, अवर सचिव

वस्त्र मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 11 दिसम्बर 2014

सं.ए-19011/12/2014-स्था.----राष्ट्रपति, सुश्री कामिनी तांडेकर (आईईएस: 2013) को आर्थिक मामले विभाग के दिनांक 05 दिसम्बर, 2014 के आदेश सं. टी-22/2014 के अनुसरण में वस्त्र मंत्रालय में सहायक निदेशक के पद पर वेतनमान रु.15,600-39,100/-पै बैंड 3 + ग्रेड पे 5,400/- रु. में दिनांक 08.12.2014 के पूर्वाह्न से नियुक्त करते हैं।

मतियस बिहां, अवर सचिव

इस्पात मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 20 नवम्बर 2014

सं. 2(10)/2010-स्थापना---राष्ट्रपति, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 20 जून, 2014 के का.जा. सं. 3/1/2014- ईओ (एमएम-1) के अनुसरण में श्री निंकुज कुमार श्रीवास्तव, भा.प्र.से. (एमपी: 1998) को पे-बैंड-4, 37,400-67,000/- रुपये + ग्रेड पे 8,700/- रुपये के वेतनमान में निदेशक स्तर पर माननीय इस्पात और खान मंत्री के निजी सचिव के रूप में दिनांक 10.11.2014 (पूर्वाह्न) से उनकी केंद्रीय प्रतिनियुक्ति की शेष अवधि अर्थात् दिनांक 02.06.2018 तक अथवा मंत्री के साथ को-टर्मिनस आधार पर अथवा मंत्री के निजी सचिव के रूप में पद त्यागने तक अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, के लिए नियुक्त करते हैं।

एच.के. वधवा, अवर सचिव

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 01 सितम्बर 2014

सं. ए-22011/9/2013-स्था.---राष्ट्रपति, केन्द्रीय सचिवालय सेवा के नियमित अनुभाग अधिकारी श्री अनिल कुमार, (सीएसएल संख्या 7391) को वर्ष 2012 की चयन सूची में शामिल कर लेने पर दिनांक 04.07.2014 से नियमित आधार पर केन्द्रीय सचिवालय सेवा के श्रेणी. I (अवर सचिव) के रूप में नियुक्त करते हैं।

एल. हौकिप, निदेशक

दिनांक: 4 सितम्बर, 2014

सं.ए-11016/6/2014-स्था.---राष्ट्रपति, श्री शशि प्रकाश मिश्रा को माननीय सूलमउ मंत्री की निजी स्थापना में एक गैर सरकारी प्रथम निजी वैयक्तिक सहायक के रूप में दिनांक 30.05.2014 से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय में वेतनमान 9,300-34,800/- रुपए (पी बी-2) एवं ग्रेड पे 4,800/- रुपए में नियुक्त करते हैं।

2. उक्त नियुक्ति माननीय सूलमउ मंत्री के कार्यकाल में प्रसाद पर्यन्त अथवा माननीय सूलमउ मंत्री, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय में अपनी निजी स्थापना में रखना चाहें, जो भी पहले हो, है।

एल. हौकिप, निदेशक

दिनांक 5 सितम्बर 2014

सं. ए-11016/6/2014-स्था.---राष्ट्रपति, श्री ज्ञान चन्द जैन को माननीय सूलमउ मंत्री की निजी स्थापना में एक गैर सरकारी अपर निजी सचिव के रूप में दिनांक 07.06.2014 से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय में वेतनमान 15,600-39,100/- रुपए (पी बी-3) एवं ग्रेड पे 6600/- रुपए में नियुक्त करते हैं।

2. उक्त नियुक्ति माननीय सूलमउ मंत्री के कार्यकाल में प्रसाद पर्यन्त अथवा जब तक माननीय सूलमउ मंत्री, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय में अपनी निजी स्थापना में रखना चाहें, जो भी पहले हो, है।

एल. हौकिप, निदेशक

दिनांक 12 सितम्बर 2014

सं.ए-11016/6/2014-स्था.—राष्ट्रपति, श्री विवेक शुक्ला को माननीय सूलमउ मंत्री की निजी स्थापना में एक गैर सरकारी सहायक निजी सचिव के रूप में दिनांक 30.05.2014 की पूर्वाह्न से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय में वेतनमान 9,300—34,800/— रुपए (पी बी-2) एवं ग्रेड पे 4,800/— रुपए में नियुक्त करते हैं।

2. उक्त नियुक्ति माननीय सूलमउ मंत्री के कार्यकाल में प्रसाद पर्यन्त अथवा माननीय सूलमउ मंत्री, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय में अपनी निजी स्थापना में रखना चाहें, जो भी पहले हो, है।

एल. हौकिप, निदेशक

दिनांक 08 अक्टूबर 2014

सं. ए-11016/6/2014-स्था. (खंड.1)—राष्ट्रपति, श्री गोविंद राम जैसवाल उत्तराखंड राज्य सरकार के एक अधिकारी को माननीय मंत्री की निजी स्थापना में विशेष कार्य अधिकारी के रूप में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय में दिनांक 08.10.2014 की पूर्वाह्न से वेतनमान 15600—39000 रुपये (पीबी-3) एवं ग्रेड पे 7600/— रुपये में नियुक्त करते हैं।

2. उक्त नियुक्ति माननीय सूलमउ मंत्री के कार्यकाल में प्रसाद पर्यन्त अथवा माननीय सूलमउ मंत्री, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय में अपनी निजी स्थापना में जब तक रखना चाहें जो भी पहले हो, है।

एल. हौकिप, निदेशक

दिनांक 29 अक्टूबर 2014

सं. ए-11016/6/2014-स्था. राष्ट्रपति, श्री सुरेश सिंह को माननीय सूलमउ मंत्री की निजी स्थापना में एक गैर सरकारी अपर निजी सचिव के रूप में दिनांक 29.05.2014 की पूर्वाह्न से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय में वेतनमान 9,300—34,800/— रुपए (पी बी-2) एवं ग्रेड पे 4,800/— रुपए में नियुक्त करते हैं।

2. उक्त नियुक्ति माननीय सूलमउ मंत्री के कार्यकाल में प्रसाद पर्यन्त अथवा जब तक माननीय सूलमउ मंत्री, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय में अपनी निजी स्थापना में रखना चाहें, जो भी पहले हो, है।

एल. हौकिप, निदेशक

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 26 जुलाई 2013

संख्या- ए.11013/1/2013-स्थापना-I(पार्ट)----राष्ट्रपति, सुश्री पी.पंडीस्वरी, (P.Pandeeswari) शिक्षा निदेशालय के ग्रेड III (डी.ए.एस.एस), जी.एन.सी.टी- दिल्ली, को दिनांक 22.07.2013 के अपराह्न से माननीया स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री (श्रीमती संतोष चौधरी) की प्रथम वैयक्तिक सहायक के रूप में नियुक्त करते हैं।

2. सुश्री पी.पंडीस्वरी की नियुक्ति सह-कालिक अथवा जब तक मंत्री जी को उनकी सेवाओं की आवश्यकता हो अथवा आगामी आदेशों तक, जो भी पहले हो के आधार पर होगी।

3. सुश्री पी. पंडीस्वरी के संबंध में नियुक्ति की शर्तें कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के का.जा. सं 6/8/2009-स्थापना (वेतन-II) दिनांक 17.6.2010 में निहित आदेशों द्वारा नियंत्रित की जाएंगी।

ध्रुव चक्रवर्ती, अवर सचिव

दिनांक 15 अक्टूबर 2013

सं. ए-11013/2/2013-स्था. I—राष्ट्रपति, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 3 अक्टूबर, 2013 के कार्यालय ज्ञापन सं. 5/9/2013-ईओ (एमएम-I) के अनुसार श्रीमती कल्पना अमर, संबद्ध सेवाएं 1974, सीएसएस-76 (सेवानिवृत्त) को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की राज्यमंत्री (श्रीमती संतोष चौधरी) के निजी सचिव के रूप में निदेशक स्तर पर (पीबी-4 रु. 37,400—67,000/—

+ ग्रेड वेतन रु. 8,700/—) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में 10 अक्टूबर, 2013 के पूर्वाह्न से मंत्री के सह-कालिक आधार पर या जब तक वह मंत्री के निजी सचिव के रूप में कार्य करना समाप्त करें या आगामी आदेशों तक, जो भी पहले हो, नियुक्त करते हैं।

ध्रुव चक्रवर्ती, अवर सचिव

दिनांक 11 नवम्बर 2013

सं० ए.19013/15/2013-स्था.1-—राष्ट्रपति, श्री रमेश चंद डांडे (Shri Ramesh Chand Danday), आईआरएस (आईटी:1994) को दिनांक 01.11.2013 (पूर्वाह्न) से पांच वर्षों की अवधि के लिए अथवा आगामी आदेशों तक, जो भी पहले हो, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में निदेशक के रूप में नियुक्त करते हैं।

ध्रुव चक्रवर्ती, उप सचिव

दिनांक 21 नवम्बर 2013

सं० ए-11013/2/2013-स्था.1-—इस विभाग के दिनांक 15.10.2013 की समसंख्यक अधिसूचना के क्रम में तथा आंशिक संशोधन करते हुए, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री (श्रीमती संतोष चौधरी) के निजी सचिव के रूप में श्रीमती कल्पना अमर, अलाईड सेवा 1974, सीएसएस-76 (सेवानिवृत्त) की नियुक्ति की तिथि को “10.10.2013 (पूर्वाह्न)” के स्थान पर “01.07.2013 (पूर्वाह्न)” पढ़ा जाए।

2. इसे कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 11.11.2013 के कार्यालय ज्ञापन सं० 05/09/2013 के अनुसरण में जारी किया जाता है।

ध्रुव चक्रवर्ती, अवर सचिव

दिनांक 06 जनवरी 2014

सं. ए. 19013/01/2014-स्थापना-1-—राष्ट्रपति, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग-डीओपीटी के दिनांक 12 दिसंबर, 2013 के आदेश संख्या 4/3/13-सीएस.। (डी) के अनुसार श्री ईश्वर सिंह, सीएसएस ग्रेड-। (अवर सचिव) की सीएसएस चयन ग्रेड-। (उप-सचिव) में तदर्थ आधार पर पदोन्नति होने के परिणामस्वरूप उन्हें एतद्वारा सीएसएस चयन ग्रेड-। (उप-सचिव) में तदर्थ आधार पर 31 दिसंबर, 2013 (अपराह्न) से, प्रारंभ में एक वर्ष की अवधि हेतु या आगामी आदेशों तक, जो भी पहले हो तक नियुक्त करते हैं।

2. श्री ईश्वर सिंह की तदर्थ पदोन्नति उपर्युक्त उल्लिखित डीओपीटी के दिनांक 12.12.2013 के आदेश के पैरा 2 में नियत विभिन्न न्यायिक मामलों/नियम एवं शर्तों के अधीन है।

ध्रुव चक्रवर्ती, अवर सचिव

दिनांक 14 फरवरी 2014

सं.-ए 11013/1/2009-स्थापना-1-—राष्ट्रपति, दिनांक 01 नवम्बर, 2013 के पूर्वाह्न से श्री राजेंद्र काला, सेवानिवृत्त केंद्र सरकारी अधिकारी, को माननीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) के सहायक निजी सचिव (पीबी-2, 9300-34800/- + ग्रेड पे 4800/- रुपए) के पद पर तैनात करते हैं।

2. श्री राजेंद्र काला की नियुक्ति संविदा आधार पर और सह-कालिक आधार पर अथवा मंत्री द्वारा उनकी सेवाओं की आवश्यकता होने तक अथवा आगामी आदेशों, जो भी पहले हो, तक होगी।

ध्रुव चक्रवर्ती, अवर सचिव

दिनांक: 24 फरवरी 2014

सं0 ए-32013/04/2013-स्था-I----कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 03 फरवरी, 2014 के आदेश सं0 4/3/2013-सीएस.I(डी) के तहत तदर्थ आधार पर सीएसएस के चयन ग्रेड (उप सचिव) में पदोन्नति के फलस्वरूप, श्री एस. के. शर्मा, ग्रेड-I (अवर सचिव), सीएसएस को प्रारंभ में एक वर्ष की अवधि के लिए अथवा आगामी आदेशों तक, जो भी पहले हो, दिनांक 24.02.2014 (पूर्वाहन) से तदर्थ आधार पर सीएसएस के चयन ग्रेड (उप सचिव) में नियुक्त किया जाता है।

2. श्री शर्मा की तदर्थ नियुक्ति उपर्युक्त संदर्भित डीओपीटी के दिनांक 03.02.2014 के आदेश के पैरा 3 में निर्धारित नियमों व शर्तों/विभिन्न न्यायिक मामलों के अधीन है।

ध्रुव चक्रवर्ती, अवर सचिव

दिनांक 04 मार्च 2014

सं.ए-19011/02/2014-स्था.I----राष्ट्रपति, कार्मिक व प्रशिक्षण विभाग के 25 फरवरी, 2014 के आदेश सं. 5/3/2014-ईओ (एसएम-1) के अनुसरण में, श्री गौतम गुहा, आईएएस (81) को स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्री में अपर सचिव व वित्तीय सलाहकार के रूप में नियुक्त करते हैं।

2. श्री गौतम गुहा ने 3 मार्च, 2014 के पूर्वाहन से स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में अपर सचिव व वित्तीय सलाहकार के पद का प्रभार संभाल लिया है।

ध्रुव चक्रवर्ती, अवर सचिव

दिनांक 9 मई 2014

सं. ए.19012/1/2014-स्थापना-I----राष्ट्रपति, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग में श्री कैलाश चंद समरिया, भारतीय प्रशासनिक सेवा (ए एम: 1993) को दिनांक 9 मई 2014 से पांच वर्ष की अवधि अथवा आगामी आदेशों, जो भी पहले हो, तक 37400---67000/- (पी बी-4) के पे बैंड और 10,000 रुपए की ग्रेड पे में संयुक्त सचिव के पद पर तैनात करते हैं।

ध्रुव चक्रवर्ती, अवर सचिव

दिनांक 20 मई, 2014

सं. ए 32013/10/2014-स्था-I----सीएसएसएस के ग्रेड 'ए' और 'बी' (आमेलित) के निम्नलिखित अधिकारियों का नाम कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 30 अप्रैल, 2014 के का.जा.सं. 3/2/2013-सीएस-II(ए) के तहत सीएसएसएस के प्रधान निजी सचिव ग्रेड की वर्ष 2013 की चयन सूची में शामिल होने के परिणामस्वरूप, राष्ट्रपति प्रत्येक अधिकारी के सामने उल्लिखित तारीख से उन्हें स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में नियमित आधार पर सीएसएसएस के प्रधान निजी सचिव के रूप में नियुक्त करते हैं:

| अधिकारी का नाम             | दिनांक                |
|----------------------------|-----------------------|
| I. श्रीमती किरण बाला लूथरा | 30.04.2014 (अपराहन)   |
| II. श्री एन.नारायणन        | 08.05.2014 (पूर्वाहन) |

ध्रुव चक्रवर्ती, अवर सचिव

दिनांक 30 मई 2014

सं. ए. 32013/13/2013-स्थापना-I----कार्मिक व प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 13-5-2014 के आदेश संख्या 3/1/2011-सीएस-I (डी) के अनुसरण में केंद्रीय सचिवालय सेवा के चयन ग्रेड (उप-सचिव) के अद्योलिखित अधिकारी को स्वास्थ्य व परिवार कल्याण विभाग में दिनांक 13-05-2014 के पूर्वाहन से एक वर्ष की अवधि के लिए अथवा आगामी आदेशों तक, जो भी पहले हो, वेतन बैंड 4 (37,400+67,000 रूपए)+84,00 रूपए के ग्रेड वेतन में निदेशक के रूप में पदोन्नति द्वारा तदर्थ आधार पर नियुक्त किया जाता हैं।

| क्र.सं. | नाम सर्व/श्री                |
|---------|------------------------------|
| 1.      | महेन्द्र सिंह (सीएसएल: 4582) |

ध्रुव चक्रवर्ती, अवर सचिव

दिनांक 13 जून 2014

सं0 ए-32013/10/2014-स्था-I----कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के का.जा. सं0 3/2/2013-सीएस.II(क) दिनांक 30 अप्रैल, 2014 के तहत वर्ष 2013 के सीएसएसएस के प्रधान निजी सचिव ग्रेड की चयन सूची में नाम शामिल किए जाने के परिणामस्वरूप, राष्ट्रपति महोदय श्री एच.के. जैन को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के संवर्ग में 06 जून, 2014 के पूर्वाहन से नियमित आधार पर सीएसएसएस के प्रधान निजी सचिव ग्रेड में नियुक्त करते हैं।

ध्रुव चक्रवर्ती, अवर सचिव

दिनांक 8 जुलाई 2014

सं0 ए-32013/07/2014-स्था-I----राष्ट्रपति महोदय सुश्री बिन्दु तिवारी, आईआरएसएमई (1994) को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में दिनांक 08.07.2014 के पूर्वाहन से पांच वर्षों की अवधि के लिए अथवा आगामी आदेशों तक निदेशक के रूप में नियुक्त करते हैं।

ध्रुव चक्रवर्ती, अवर सचिव

दिनांक 10 जुलाई 2014

सं0 ए-19012/03/2010-स्था-I----राष्ट्रपति स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के संयुक्त सचिव श्री अरुण कुमार पण्डा, आईएस (ओआर:1984), को दिनांक 10.07.2014 के पूर्वाहन से स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में अपर सचिव के रूप में नियुक्त करते हैं।

ध्रुव चक्रवर्ती, अवर सचिव

दिनांक 11 जुलाई 2014

सं0 ए-32013/13/2014-स्था-I----राष्ट्रपति महोदय श्री देवेश देवल, आईएस (एमटी:2004), को दिनांक 10.07.2014 के पूर्वाहन से दिनांक 20.02.2017 तक की अवधि के लिए या आगामी आदेशों तक, जो भी पहले हो, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में उप सचिव के रूप में नियुक्त करते हैं।

ध्रुव चक्रवर्ती, अवर सचिव

दिनांक 17 जुलाई 2014

सं. ए.32013/12/2014-स्थापना-I----राष्ट्रपति, श्री के. एल. शर्मा, सी एस एस, संयुक्त सचिव स्व स्थाने (इन-सीटू) को दिनांक 11.07.2014 के अपराहन से मौजूदा रिक्ति के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में संयुक्त सचिव के रूप में नियुक्त करते हैं।

ध्रुव चक्रवर्ती, अवर सचिव

दिनांक 22 जुलाई 2014

सं. ए.32013/9/2014-स्थापना-I----राष्ट्रपति, श्री राजीव कुमार, आई आर एस एस ई (1992) को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में निदेशक के पद पर दिनांक 21.07.2014 के पूर्वाहन से पांच वर्ष की अवधि के लिए, या आगामी आदेशों तक, जो भी पहले हो, के लिए नियुक्त करते हैं।

ध्रुव चक्रवर्ती, अवर सचिव

दिनांक 25 जुलाई, 2014

सं. ए-22012/02/2013-स्था.-I----राष्ट्रपति, केन्द्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा के श्री संजय कुमार को दिनांक 11-07-2014 के पूर्वाहन से एक वर्ष की अवधि अथवा आगामी आदेशों तक, जो भी पहले हो, वेतन बैंड-3 (15,600--39,100/-रूपए+5,400/-रूपए के ग्रेड वेतन) में सहायक निदेशक (रा.भा.) के पद पर नियुक्त करते हैं।

2. अधिकारी की पदोन्नति पूर्णतया तदर्थ आधार पर है लेकिन इससे उन्हें लगातार इस ग्रेड में बने रहने अथवा नियमित पदोन्नति के लिए चयन सूची में शामिल होने अथवा वरिष्ठता, इत्यादि का दावा करने का अधिकार नहीं होगा।

ध्रुव चक्रवर्ती, अवर सचिव

दिनांक 25 अगस्त 2014

सं. ए. 11013/4/2014-स्थापना-I----राष्ट्रपति, श्री गुलशन राय विरमानी, दिल्ली विकास प्राधिकरण को दिनांक 11.6.2014 के पूर्वाहन से पी बी-3, ग्रेड वेतन-6600/- में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण (डॉ. हर्ष वर्धन) के अपर निजी सचिव के रूप में नियुक्त करते हैं।

2. गुलशन राय विरमानी की नियुक्ति सह-कालिक आधार पर अथवा जब तक मंत्री जी को उनकी सेवाओं की आवश्यकता हो अथवा आगामी आदेशों तक, जो भी पहले हो, के आधार पर होगी।

ध्रुव चक्रवर्ती, अवर सचिव

दिनांक 27 अगस्त 2014

सं. ए. 11013/2/2014-स्थापना-I----कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 28.7.2014 के का.जा. संख्या 5/3/2014-ईओ (एमएम-I) (डी) के अनुसरण में महामहिम राष्ट्रपति जी श्री डी. एन. सिंह, (डी.ए.एन.आई.सी.एस-1987) को माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. हर्ष वर्धन) के निजी सचिव के रूप में निदेशक स्तर पर (वेतन बैंड-4, रु. 37,400---67000+ग्रेड वेतन रु. 8700) 19 अगस्त, 2014 के पूर्वाहन से पांच वर्ष की अवधि अथवा सहकालिक आधार पर अथवा जब तक उन्हें मंत्री जी के निजी सचिव के रूप में काम करने से रोक न दिया गया हो या अगले आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो, नियुक्त करते हैं।

ध्रुव चक्रवर्ती, अवर सचिव

## दिनांक 9 सितम्बर 2014

सं. ए. 32013/02/2014-स्था-1 (पार्ट)----स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में फिलहाल तैनात केन्द्रीय सचिवालय सेवा (सीएसएस) की निम्नलिखित तदर्थ ग्रेड-I (अवर सचिव) का नाम कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 4 सितम्बर, 2014 के कार्यालय ज्ञापन सं. 5/6/2013-सीएस.। (यू) के तहत नियमित आधार पर सीएसएस के ग्रेड-I (अवर सचिव) में नियुक्ति हेतु वर्ष 2012 की चयन सूची में शामिल होने के परिणामस्वरूप, उन्हें उनके नाम के सामने उल्लिखित वर्ष के लिए नियमित आधार पर सीएसएस के ग्रेड-I (अवर सचिव) की चयन सूची में शामिल किया जाता है:-

| क्र.सं. | अधिकारी का नाम | सीएसएस सं. | एसएस वर्ष |
|---------|----------------|------------|-----------|
| 01      | वन्दना चौधरी   | 8058       | 2012      |

2. उपर्युक्त अधिकारी की नियमित आधार पर ग्रेड-I (अवर सचिव) में यह नियुक्ति कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 4.7.2014 के का.ज्ञा.सं. 5/6/2013- सीएस.। (यू) में निर्धारित विभिन्न शर्तों एवं निबंधनों के अधीन होगी।

ध्रुव चक्रवर्ती, अवर सचिव

## दिनांक 7 अक्टूबर 2014

सं. ए-19012/3/2014-स्थापना-I----राष्ट्रपति महोदय, श्री अली रजा रिजवी, भारतीय प्रशासनिक सेवा (हि.प्र. 1988) को दिनांक एक अक्टूबर, 2014 से पांच वर्ष की अवधि अथवा आगामी आदेशों, जो भी पहले हो, तक 37,400----67,000/-रूपए (पीबी-4) के पे बैंड और 10,000/-रूपए के ग्रेड वेतन में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग में संयुक्त सचिव के पर पर नियुक्त करते हैं।

ध्रुव चक्रवर्ती, अवर सचिव

## दिनांक 10 अक्टूबर 2014

सं. ए-32013/02/2014-स्थापना-I----राष्ट्रपति, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग डीओपीटी के आदेश सं. 5/11/2014-सीएस.। (यू) दिनांक 19 सितंबर, 2014 के आधार पर सुश्री सुनीता ढौंडियाल, अनुभाग अधिकारी (सीएसएस: 8558) सीएसएस, पर्यावरण, वन व जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को तदर्थ आधार पर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में सीएसएस के ग्रेड-I (अवर सचिव) के रूप में, 1 अक्टूबर, 2014 के पूर्वाह्न से 31.05.2015 तक अथवा उक्त पद नियमित आधार पर भरने या अगले आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो, की अवधि तक के लिए नियुक्त करते हैं।

2. अधिकारी की तदर्थ आधार पर पदोन्नति डीओपीटी के उपर्युक्त आदेश में उल्लिखित निबंधन व शर्तों के तहत होगी।

ध्रुव चक्रवर्ती, अवर सचिव

सं. ए-32013/02/2014-स्थापना-I----राष्ट्रपति, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग डीओपीटी के आदेश सं. 5/11/2014-सीएस.। (यू) दिनांक 15 सितंबर, 2014 के आधार पर श्री दिलीप कुमार साहू, अनुभाग अधिकारी (सीएसएस: 8470) सीएसएस रक्षा मंत्रालय को तदर्थ आधार पर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में सीएसएस के ग्रेड-I (अवर सचिव) के रूप में, 25 सितंबर, 2014 के पूर्वाह्न से 31.05.2015 तक अथवा उक्त पद नियमित आधार पर भरने या अगले आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो, की अवधि तक के लिए नियुक्त करते हैं।

2. अधिकारी की तदर्थ आधार पर पदोन्नति डीओपीटी के उपर्युक्त आदेश में उल्लिखित निबंधन व शर्तों के तहत होगी।

ध्रुव चक्रवर्ती, अवर सचिव

सं. ए-32013/02/2014-स्थापना-I----राष्ट्रपति, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग डीओपीटी के आदेश सं. 5/11/2014-सीएस.। (यू) दिनांक 15 सितंबर, 2014 के आधार पर श्री धरमिंदर सिंह, अनुभाग अधिकारी (सीएसएल: 8744) सीएसएस, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय को तदर्थ आधार पर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में सीएसएस के ग्रेड-I (अवर सचिव) के रूप में, 01 अक्टूबर, 2014 के पूर्वाह्न से 31.05.2015 तक अथवा उक्त पद नियमित आधार पर भरने या अगले आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो, की अवधि तक के लिए नियुक्त करते हैं।

2. अधिकारी की तदर्थ आधार पर पदोन्नति डीओपीटी के उपर्युक्त आदेश में उल्लिखित निबंधन व शर्तों के तहत होगी।

ध्रुव चक्रवर्ती, अवर सचिव

दिनांक 20 अक्टूबर 2014

सं.ए.32014/2/2014-स्था.।----कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के 16 सितंबर, 2014 के कार्यालय ज्ञापन सं. 4/8/2013-सीएस.।। (ए)(भाग-I) के तहत सीएसएसएस(निजी सचिव) की 2012(विस्तारित) की चयन सूची ग्रेड-ए और ग्रेड-बी (आमेलित) में उनका नाम शामिल किए जाने के फलस्वरूप, राष्ट्रपति जी श्रीमती शशि महानी, नियमित ग्रेड-सी आशुलिपिक को सीएसएसएस ग्रेड-ए और ग्रेड-बी(आमेलित) के पद पर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में, नियमित आधार पर 17 अक्टूबर, 2014 के पूर्वाह्न से नियुक्त करते हैं।

ध्रुव चक्रवर्ती, अवर सचिव

दिनांक 29 अक्टूबर 2014

सं. ए. 32014/2/2014-स्थापना-I----राष्ट्रपति कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 16 सितंबर, 2014 के का.जा. संख्या 4/8/2013-सी एस II (ए) (भाग-I) के तहत जोनिंग स्कीम के अंतर्गत स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के संवर्ग में वर्ष 2012 (विस्तारित) संबंधी सी एस एस एस (पी एस) की ग्रेड 'ए' और 'बी' (आमेलित) की चयन सूची में श्री शंकर पॉल का नाम शामिल होने के परिणामस्वरूप उन्हें दिनांक 27 अक्टूबर, 2014 के पूर्वाह्न से स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत सी एस एस एस के ग्रेड 'ए' और 'बी' (आमेलित) में नियमित आधार पर नियुक्त करते हैं।

ध्रुव चक्रवर्ती, अवर सचिव

सं. ए. 32014/2/2014-स्थापना-I----राष्ट्रपति कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 26 मई, 2014 के का. जा. सं. 4/8/2013-सी एस II (ए) के तहत जोनिंग स्कीम के अंतर्गत स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के संवर्ग में वर्ष 2012 संबंधी सी एस एस एस (पी एस) की ग्रेड 'ए' और 'बी' (आमेलित) की चयन सूची में श्री थेंखोलाल बाइटे, नियमित ग्रेड 'सी' आशुलिपिक, का नाम शामिल होने के परिणामस्वरूप उन्हें दिनांक 21 अक्टूबर, 2014 के पूर्वाह्न से नियमित आधार पर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत सी एस एस एस के ग्रेड 'ए' और 'बी' (आमेलित) में नियुक्त करते हैं।

ध्रुव चक्रवर्ती, अवर सचिव

दिनांक 3 नवम्बर 2014

सं0 ए-19011/03/2014-स्था-I----राष्ट्रपति महोदय श्री नवरीत सिंह कांग, आईएस (पंजाब:1983), को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में दिनांक 03.11.2014 के पूर्वाह्न से अपर सचिव एवं महानिदेशक, केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के रूप में नियुक्त करते हैं।

ध्रुव चक्रवर्ती, अवर सचिव

सं. ए. 38013/04/2014-स्थापना-1----स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के श्री एन विश्वनाथ, अनुभाग अधिकारी, अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर 31 अक्टूबर, 2014 अपराह्न से सेवा निवृत्त हो गये हैं।

ध्रुव चक्रवर्ती, अवर सचिव

दिनांक 7 नवम्बर 2014

सं. ए. 19012/4/2014-स्थापना-I---राष्ट्रपति महोदय, सुश्री धारित्री पांडा, आई सी ए एस (1987) को दिनांक 7 नवम्बर, 2014 के अपराह्न से पांच वर्ष की अवधि आगामी आदेशों, जो भी पहले हो, तक 37,400---67,0002- (पीबी-4) के वेतन बैंड और 10,000/- रु. के ग्रेड वेतन में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग में संयुक्त सचिव के पद पर तैनात करते हैं।

ध्रुव चक्रवर्ती, अवर सचिव

दिनांक 24 नवंबर 2014

सं.ए.11013/12/2014-स्था.।---कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन सं. 5/4/2014-ईओ(एमएम-।) दिनांक 20.11.2014 के अनुसार राष्ट्रपति, डॉ. अमनदीप गर्ग, आईएसएस(एचपी:99) को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री जे.पी. नड्डा) के निजी सचिव के रूप में निदेशक स्तर पर (पीबी-4 रु. 37,400---67,000+ ग्रेड वेतन रु.8,700/-) 24 नवंबर, 2014 (पूर्वाह्न) से नियुक्त करते हैं। उनकी नियुक्ति पांच वर्ष के लिए अथवा मंत्री महोदय के साथ को-टर्मिनस आधार पर अथवा उनके मंत्री के निजी सचिव बने रहने तक अथवा अगले आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो, तक के लिए होगी।

ध्रुव चक्रवर्ती, अवर सचिव

स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय

नई दिल्ली, दिनांक 14 अगस्त 2013

सं. ए-19020/02/2013-प्रशा.-1---संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिश के अनुसरण में, राष्ट्रपति जी, डॉ. ज्ञान प्रकाश शर्मा को दिनांक 23 जुलाई, 2013 पूर्वाह्न से सीधी भर्ती आधार पर स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के अधीन एफ आर एस एल, गाजियाबाद में निदेशक के रूप में नियुक्त करते हैं।

जितेन्द्र सिंह, उप निदेशक (प्रशा.)

जनजातीय कार्य मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 5 दिसम्बर 2014

सं. 11036/13/2009-पीसीएंडवी---इस मंत्रालय की दिनांक 26-06-2014 की अधिसूचना सं. 11036/13/2009-पीसीएंडवी के आंशिक संशोधन में और सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19(1) के संबंध में निम्नलिखित संशोधन किए जाते हैं, नामतः-

(क) क्रम संख्या 7 के पश्चात क्रम संख्या 4 (श्री राजेन्द्र प्रसाद) के मुद्दे "विषय वस्तु" में निम्नलिखित को जोड़ा जाए:-

"8. उच्च स्तरीय समिति से संबंधित मामले"

(ख) स्थानांतरण के बाद उपर्युक्त अधिसूचना की क्रम संख्या 1 तथा तत्संबंधी प्रविष्टियों में दर्शाए गए श्रीमती नमिता प्रियदर्शी, निदेशक (एचएलसी) का नाम हटाया गया माना जाए।

आर.सी. ध्यानी, अवर सचिव

सं. 11036/13/2009-पीसीएंडवी----इस मंत्रालय की दिनांक 07-07-2014 की अधिसूचना सं. 11036/13/2009-पीसीएंडवी के आंशिक संशोधन में और सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19(1) के संबंध में "प्रभाग/अनुभाग" शीर्षक के तहत क्रम संख्या 6 (श्री गोपाल साधवानी) पर विद्यमान प्रविष्टियों के लिए निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाए, नामतः:-

"प्रशासन/संसद समन्वय एवं सतर्कता (पीसीएंडवी)/राजभाषा (रा.भा.)/एचएलसी"

2. उपर्युक्त अधिसूचना में क्रम संख्या 1 तथा तत्संबंधी प्रविष्टियों पर दर्शाए गए श्री अशोक पै, संयुक्त सचिव के नाम को हटाया गया माना जाए।

आर.सी. ध्यानी, अवर सचिव

### संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

(डाक विभाग)

नई दिल्ली-110001, दिनांक 12 सितम्बर 2013

सं. 3-6/2009-प्रशासन---संयुक्त अनुभाग अधिकारी/ आशुलिपिक (ग्रेड-ख/ग्रेड-1) सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा 2009, 2010 एवं 2011 के परिणाम के आधार पर तथा कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के का.जा.सं. 4/6/2013-सीएस-11(क) दिनांक 22.08.2013 के अनुसरण में, राष्ट्रपति, डाक विभाग में केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा (सीएसएसएस) की नियमित वैयक्तिक सहायक, श्री एस. ए. श्रीकांत (रैंक सं. 11) को 9,300-34,800/- रु के वेतन बैंड पीबी-2 में 4,800/- रु. के ग्रेड वेतन के साथ दिनांक 22.08.2013 (पूर्वाहन) से उसी विभाग में चयन सूची वर्ष 2009 के लिए सीएसएसएस के निजी सचिव (पीएस) के रूप में नियुक्त करते हैं।

मनोरंजन सामल, सहायक महानिदेशक(प्रशासन)

दिनांक 24 सितम्बर 2014

सं. 3-2/2012-प्रशासन---संयुक्त अनुभाग अधिकारी/ आशुलिपिक (ग्रेड-ख/ग्रेड-1) के लिए सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा 2009, 2010 एवं 2011 के परिणाम के आधार पर, तथा कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के का.जा.सं. 4/6/2013-सीएस-11(क) दिनांक 22.08.2013 तथा 05.09.2013 के अनुसरण में, राष्ट्रपति, सुश्री रेशमा सुखवानी (रैंक सं. 4) गृह मंत्रालय में सीएसएसएस के नियमित निजी सहायक को दिनांक 12.09.2013 (पूर्वाहन) से 9,300-34,800/- रु वेतन बैंड पीबी-2 के ग्रेड वेतन 4,800/- रु में चयन सूची वर्ष 2011 हेतु सीएसएसएस के निजी सचिव (पीएस) के रूप में डाक विभाग में नियुक्ति प्रदान करते हैं।

मनोरंजन सामल, सहायक महानिदेशक(प्रशासन)

### रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड)

नई दिल्ली, दिनांक 3 दिसम्बर 2014

सं. ई(जी.पी.) 2012/3/2----राष्ट्रपति महोदय, भारतीय रेलों के सिविल इंजिनियरिंग विभाग के निम्नलिखित 137 ग्रुप-बी अधिकारियों जो कि निम्न दर्शाये गये रेलों से हैं, की 22.08.2014 से भारतीय रेल सिविल इंजीनियरी सेवा (आई. आर. एस. ई.) के ग्रुप-ए/कनिष्ठ वेतनमान में सहर्ष नियुक्त करते हैं।

2012-13 के लिए पैनेल

| क्र. सं. | अधिकारी का नाम | रेलवे |
|----------|----------------|-------|
| 1.       | एस. वेंकटपति   | द.रे. |
| 2.       | के.के. वर्मा   | म.रे. |
| 3.       | के. मरीयप्पन   | द.रे. |

|     |                     |                |
|-----|---------------------|----------------|
| 4.  | धनेश कुमार पाठक     | उ.रे.          |
| 5.  | मो. अख्तर अली       | पू.म.रे.       |
| 6.  | ए.के. शुक्ला        | म.रे.          |
| 7.  | वी. जानकी रमन       | द.रे.          |
| 8.  | के. कलाइसेल्वन      | द.रे.          |
| 9.  | एस.के. घोष          | द.पू.रे.       |
| 10. | गुलाब चन्द          | डी.रे.का.      |
| 11. | चौ. मोहन राव        | पूर्व तट रे.   |
| 12. | जयदीप चक्रबोर्ती    | पूर्वो सी. रे. |
| 13. | एम. ए. आर. नोएल     | द.पू.रे.       |
| 14. | पी. बारदोलोई        | पूर्वो सी. रे. |
| 15. | ए.डी. मौर्या        | उ.रे.          |
| 16. | के.एल. सेन          | द.पू.रे.       |
| 17. | ए. कुरुपावरम        | द.प.रे.        |
| 18. | आशुतोष कुमार        | द.पू.रे.       |
| 19. | बी.बी. महाराना      | पूर्व तट रे.   |
| 20. | जी. नरसिम्हन मूर्ती | पूर्व तट रे.   |
| 21. | अनिल कुमार पाण्डे   | द.पू.म.रे.     |
| 22. | वाई. श्रीनिवासु     | पूर्व तट रे.   |
| 23. | पी.के. मोहन्ती      | पूर्व तट रे.   |
| 24. | आर.डी. यू.एम. राव   | पूर्व तट रे.   |
| 25. | एस.के. आचार्या (2)  | पूर्व तट रे.   |
| 26. | ए. सुब्बा राव       | द.प.रे.        |
| 27. | आर. के. जैन         | उ.म.रे.        |
| 28. | एस.के. सारंगी       | पूर्व तट रे.   |
| 29. | आलोक भट्टाचार्य     | द.पू.रे.       |
| 30. | राजीब मंडल          | द.पू.रे.       |
| 31. | के.बी. मुखोपाध्याय  | द.पू.रे.       |
| 32. | बादशाह सिंह         | पू.म.रे.       |
| 33. | महेश प्रसाद सिंह    | पू.म.रे.       |
| 34. | चिरंजीव कुमार कुंडु | पू.रे.         |
| 35. | अरविन्द कुमार शर्मा | पू.म.रे.       |
| 36. | आर.के. सक्सेना      | म.रे.          |

|     |                           |                |                                     |
|-----|---------------------------|----------------|-------------------------------------|
| 37. | जी.पी. यादव               | प.म.रे.        |                                     |
| 38. | खुर्शीद आजम               | प.रे.          |                                     |
| 39. | आलोक मित्तल               | म.रे.          |                                     |
| 40. | एस. चक्रबोर्ती            | पूर्वो सी. रे. |                                     |
| 41. | एस. विस्वास               | पूर्वो सी. रे. |                                     |
| 42. | पी.एस. रबिन्द्रन          | पूर्वो सी. रे. |                                     |
| 43. | पी.के. रॉय                | पूर्वो सी. रे. |                                     |
| 44. | आर.सी. पॉल                | पूर्वो सी. रे. |                                     |
| 45. | बी. दत्ता                 | पूर्वो सी. रे. |                                     |
| 46. | जी. बनर्जी                | पूर्वो सी. रे. |                                     |
| 47. | डी.के. अम्बस्था           | पू.रे.         |                                     |
| 48. | ए. नरसिम्हन               | स.डि.का.       |                                     |
| 49. | पी.पी.एस. सिसौदिया        | प.म.रे.        |                                     |
| 50. | सुधीर परिहार              | प.म.रे.        |                                     |
| 51. | ए. शिवकुमार               | प.रे.          |                                     |
| 52. | अतहर हुसैन                | प.रे.          |                                     |
| 53. | नेता प्रसाद (अ.जा.)       | डी.रे.का.      | (अ.जा. के आरक्षित पद पर पदोन्नति)   |
| 54. | एस. आर. बाला (अ.जा.)      | पू.रे.         | (अ.जा. के आरक्षित पद पर पदोन्नति)   |
| 55. | बी.एन. मंडल (अ.जा.)       | द.पू.म.रे.     | (अ.जा. के आरक्षित पद पर पदोन्नति)   |
| 56. | एन. अन्जैया (अ.जा.)       | द.म.रे.        | (अ.जा. के आरक्षित पद पर पदोन्नति)   |
| 57. | डी.पी. सिंह (अ.जा.)       | उ.म.रे.        | (अ.जा. के आरक्षित पद पर पदोन्नति)   |
| 58. | हरी लाल (अ.जा.)           | द.पू.म.रे.     | (अ.जा. के आरक्षित पद पर पदोन्नति)   |
| 59. | एच. एल. कोरी (अ.जा.)      | द.पू.म.रे.     | (अ.जा. के आरक्षित पद पर पदोन्नति)   |
| 60. | एम.एस. रॉय (अ.जा.)        | द.पू.रे.       | (अ.जा. के आरक्षित पद पर पदोन्नति)   |
| 61. | निरंजन दास (अ.जा.)        | द.पू.रे.       | (अ.जा. के आरक्षित पद पर पदोन्नति)   |
| 62. | सुरेन्द्र चौ. राव (अ.जा.) | द.पू.रे.       | (अ.जा. के आरक्षित पद पर पदोन्नति)   |
| 63. | ए.ए. डेका (अ.ज.जा.)       | पूर्वो.सी.रे.  | (अ.ज.जा. के आरक्षित पद पर पदोन्नति) |
| 64. | एस.के. पात्रो (अ.ज.जा.)   | पूर्व तट रे.   | (अ.ज.जा. के आरक्षित पद पर पदोन्नति) |
| 65. | एस. रविन्द्रनाथ (अ.ज.जा.) | द.म.रे.        | (अ.ज.जा. के आरक्षित पद पर पदोन्नति) |
| 66. | आर. शिवकुमार (अ.ज.जा.)    | द.प.रे.        | (अ.ज.जा. के आरक्षित पद पर पदोन्नति) |

|     |                             |         |                                     |
|-----|-----------------------------|---------|-------------------------------------|
| 67. | चन्द्रशेखर टी.एस. (अ.ज.जा.) | द.प.रे. | (अ.ज.जा. के आरक्षित पद पर पदोन्नति) |
| 68. | प्रेम सागर                  | प.रे.   |                                     |
| 69. | एन.के. बरांगे               | प.रे.   |                                     |
| 70. | नवीन कुमार                  | प.रे.   |                                     |

## 2013-14 के लिए पैनल

| क्र. सं. | अधिकारी का नाम        | रेलवे      |
|----------|-----------------------|------------|
| 1.       | यू.एस. प्रसाद         | प.रे.      |
| 2.       | मनीष मलिक             | प.रे.      |
| 3.       | एन.के. चौहरी          | पूर्व. रे. |
| 4.       | के.के. पाण्डे         | पू.म.रे.   |
| 5.       | एन.के. सिंह           | पूर्व.रे.  |
| 6.       | एन. श्रीनिवासा राव    | द.म.रे.    |
| 7.       | पी.के. सिंह           | पूर्व.रे.  |
| 8.       | विजय कुमार के.        | द.म.रे.    |
| 9.       | पी. चिरंजीवी          | द.म.रे.    |
| 10.      | नरेन्द्र कुमार अरोड़ा | द.प.रे.    |
| 11.      | अविजीत नाग            | पू.रे.     |
| 12.      | के.के. वर्मा          | द.पू.म.रे. |
| 13.      | के.पी. अब्दुल रहमान   | द.पू.म.रे. |
| 14.      | आर.के. सिन्हा         | द.पू.म.रे. |
| 15.      | अभय सिंह              | द.पू.म.रे. |
| 16.      | दिनेश प्रसाद सिंह     | पू.म.रे.   |
| 17.      | विजय प्रसाद           | पू.म.रे.   |
| 18.      | पी. आर. सिंह          | पू.म.रे.   |
| 19.      | कृष्णा कुमार          | पू.रे.     |
| 20.      | कृष्णा सिंह           | पूर्व.रे.  |
| 21.      | वी.के. श्रीवास्तव     | पूर्व.रे.  |
| 22.      | अनिल कुमार पाठक       | पू.रे.     |
| 23.      | इदरिश मोहम्मद         | प.म.रे.    |
| 24.      | दीपक मुके             | प.म.रे.    |

|     |                     |                |                                   |
|-----|---------------------|----------------|-----------------------------------|
| 25. | डी.सी. दिवेदी       | उ.रे.          |                                   |
| 26. | पी. एस. नारायन      | प.रे.          |                                   |
| 27. | पी.के. व्यास        | प.रे.          |                                   |
| 28. | आर.के. श्रीधर       | प.रे.          |                                   |
| 29. | आर.के. कपूर         | प.रे.          |                                   |
| 30. | आई.पी.एस. लोधी      | प.रे.          |                                   |
| 31. | एम.के. पटेल         | प.रे.          |                                   |
| 32. | एम.के. कुकलौर्या    | प.रे.          |                                   |
| 33. | वी.पी. श्रीवास्तव   | प.रे.          |                                   |
| 34. | डी.आर. शर्मा        | उ.प.रे.        |                                   |
| 35. | अशोक कुमार आर्या    | उ.प.रे.        |                                   |
| 36. | पी.के. अग्निहोत्री  | उ.प.रे.        |                                   |
| 37. | राघवेन्द्र गुप्ता   | प.रे.          |                                   |
| 38. | सी.एस. हंसेलिया     | प.रे.          |                                   |
| 39. | सतीश चन्द्र दूबे    | उ.म.रे.        |                                   |
| 40. | मनोज गोयल           | प.रे.          |                                   |
| 41. | एम.जेड.ए. शरीफ      | द.म.रे.        |                                   |
| 42. | रविन्दर मेहरा       | पूर्वो. रे.    |                                   |
| 43. | कुलबीर सिंह (अ.जा.) | उ.रे.          |                                   |
| 44. | आर.के. कुशवाहा      | उ.रे.          |                                   |
| 45. | राजीव सक्सेना       | उ.रे.          |                                   |
| 46. | एस. आर. महमूद       | उ.रे.          |                                   |
| 47. | बलजीत सिंह          | उ.प.रे.        |                                   |
| 48. | राजेश महाजन         | उ.रे.          |                                   |
| 49. | आर.एन.एस. परिहार    | प.म.रे.        |                                   |
| 50. | एस.के. नायक (2)     | पूर्व तट रे.   |                                   |
| 51. | सी.पी. सिंह         | द.पू.रे.       |                                   |
| 52. | बी.के. वर्मा        | उ.म.रे.        |                                   |
| 53. | एन.सी. मंडल (अ.जा.) | द.पू.रे.       | (अ.जा. के आरक्षित पद पर पदोन्नति) |
| 54. | एस.एस. दास (अ.जा.)  | पूर्वो.सी. रे. | (अ.जा. के आरक्षित पद पर पदोन्नति) |

|     |                             |               |                                     |
|-----|-----------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 55. | सी.वी. नायक (अ.जा.)         | पूर्व तट रे.  | (अ.जा. के आरक्षित पद पर पदोन्नति)   |
| 56. | देवेन्द्र मोहन सिंह (अ.जा.) | प.रे.         | (अ.जा. के आरक्षित पद पर पदोन्नति)   |
| 57. | पी.गोपी (अ.जा.)             | पूर्व तट रे.  | (अ.जा. के आरक्षित पद पर पदोन्नति)   |
| 58. | एस. के. पिपलाड़िया (अ.जा.)  | प.रे.         | (अ.जा. के आरक्षित पद पर पदोन्नति)   |
| 59. | आई. प्रभाकरन (अ.जा.)        | द.प.रे.       | (अ.जा. के आरक्षित पद पर पदोन्नति)   |
| 60. | मनोहरन के. (अ.जा.)          | द.रे.         | (अ.जा. के आरक्षित पद पर पदोन्नति)   |
| 61. | राजेन्द्रन के. (अ.जा.)      | द.रे.         | (अ.जा. के आरक्षित पद पर पदोन्नति)   |
| 62. | के. कनका राव (अ.ज.जा.)      | द.पू.रे.      | (अ.ज.जा. के आरक्षित पद पर पदोन्नति) |
| 63. | के. किशन (अ.ज.जा.)          | द.म.रे.       | (अ.ज.जा. के आरक्षित पद पर पदोन्नति) |
| 64. | दिनेश्वर साई (अ.ज.जा.)      | म.रे.         | (अ.ज.जा. के आरक्षित पद पर पदोन्नति) |
| 65. | दीप सिंह चौहान (अ.ज.जा.)    | प.रे.         | (अ.ज.जा. के आरक्षित पद पर पदोन्नति) |
| 66. | यू.सी. दास. (अ.ज.जा.)       | पूर्वो.सी.रे. | (अ.ज.जा. के आरक्षित पद पर पदोन्नति) |
| 67. | अलगरसामी एस. (अ.जा.)        | द.रे.         | (अ.जा. के आरक्षित पद पर पदोन्नति)   |

2. उपर्युक्त अधिकारियों की नियुक्ति श्री साहेब सिंह के द्वारा माननीय कैट/नई दिल्ली में दायर की गई याचिका सं. 343/2014 के परिणाम के अध्यक्षीन की जाती है।

लिली पाण्डेय,  
निदेशक, स्था. (जी.सी.)  
रेलवे बोर्ड

नई दिल्ली, दिनांक 8 दिसम्बर 2014

सं. ई(ओ)III-2014/आरएन/21---भारतीय रेल कार्मिक सेवा के प्रवरण ग्रेड अधिकारी श्री एस.के.सिन्हा, (जन्म तिथि: 29/02/1968 एवं डीआईटीएस: 20/09/1993) का डीएमआरसी में स्थाई समाहन होने के परिणामस्वरूप उन्होंने 27/01/2014 से रेल सेवा से त्यागपत्र दे दिया है।

पी.सी. गजभिये,  
सचिव, रेलवे बोर्ड

दिनांक 9 दिसम्बर 2014

सं. ई(ओ)III-2014/आरएन/22---श्री आदेश शर्मा, एसएजी/आईआरएसई (जन्म तिथि: 10.06.1957 एवं डीआईटीएस: 15.01.81) का डीएफसीसीआईएल में स्थाई समाहन होने के परिणामस्वरूप उन्होंने 17.10.2014 (अपराहन) से रेल सेवा से त्यागपत्र दे दिया है।

पी.सी. गजभिये,  
सचिव, रेलवे बोर्ड

## पोत परिवहन मंत्रालय

नई दिल्ली—10001, दिनांक 4 दिसम्बर 2014

सं. ए-19011/10/2014—स्था.—राष्ट्रपति, श्री राजीव कुमार, आईएस (उप्र : 81) को पोत परिवहन मंत्रालय में दिनांक 01.12.2014 (पूर्वाहन) से अगले आदेशों तक, सचिव के पद पर, सहर्ष नियुक्त करते हैं।

अनुराग शर्मा, अवर सचिव

## सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 8 जुलाई 2014

सं.ए-12023/3/2014-ई-1---- राष्ट्रपति, राज्य सभा सचिवालय में वरिष्ठ सुरक्षा सहायक श्री किरन पाल खताना को 9,300---34,800/- रूपए के वेतन बैंड -2 + 4,800/- रूपए के ग्रेड वेतन में दिनांक 20.06.2014 (पूर्वाहन) से सह अवसानी/ तदर्थ आधार पर और अगले आदेशों तक अथवा जब तक मंत्री उनकी सेवा लेना चाहें अथवा कार्यालय से इस्तीफा दें जो भी पहले हो, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय और पोत परिवहन मंत्रालय में माननीय राज्य मंत्री (श्री कण्णपाल गुर्जर) के सहायक निजी सचिव के रूप में नियुक्त करते हैं।

देव राज शर्मा, अवर सचिव

सं.ए-12023/2/2014-ई-1(आंशिक)----राष्ट्रपति, श्री अतुल विजय मंडलेकर, ड्रग्स निरीक्षक, फूड एवं ड्रग्स प्रशासन, महाराष्ट्र सरकार को पे बैंड-3, रूपए 15,600----39,100/- रु.+6,600/- रु. के ग्रेड पे में 8.7.2014 (पूर्वाहन) से सह-कालिक/प्रतिनियुक्ति आधार पर अगला आदेश दिए जाने तक अथवा जब तक मंत्री जी उनकी सेवाएं चाहें अथवा कार्यालय से त्यागपत्र देने तक, इसमें से जो भी पहले हो, माननीय सड़क परिवहन और राजमार्ग तथा पोत परिवहन मंत्री (श्री नितिन जयराम गडकरी) के अपर निजी सचिव के पद पर नियुक्त करते हैं।

देव राज शर्मा, अवर सचिव

दिनांक 14 जुलाई 2014

सं.ए-12023/2/2014-ई-1----राष्ट्रपति, श्री मनोज पी. वाडेकर को पे बैंड-3, रूपए 15,600----39,100/- रु.+6,600/- रु. के ग्रेड पे में 03.06.2014 (पूर्वाहन) से सह-कालिक आधार पर अगला आदेश दिए जाने तक अथवा जब तक मंत्री जी उनकी सेवाएं चाहें अथवा कार्यालय से त्यागपत्र देने तक, इसमें से जो भी पहले हो, माननीय सड़क परिवहन और राजमार्ग तथा पोत परिवहन मंत्री (श्री नितिन जयराम गडकरी) के अपर निजी सचिव के पद पर नियुक्त करते हैं।

देव राज शर्मा, अवर सचिव

दिनांक 8 अगस्त 2014

सं.ए-12023/2/2014-ई-1----श्री वैभव डांगे, गैर-सरकारी पदाधिकारी (प्राइवेट व्यक्ति) की नियुक्ति के बारे में कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (स्थापना अधिकारी का कार्यालय) के दिनांक 8.8.2014 के कार्यालय ज्ञापन सं.1/2/2014-ईओ(एमएम-1) के अनुपालन में राष्ट्रपति, श्री वैभव डांगे को 29.05.2014 से पांच वर्ष की अवधि के लिए अथवा मंत्री के सहकालिक आधार पर अथवा मंत्री के निजी सचिव के पद पर कार्य करने के लिए उनके मना करने तक अथवा अगला आदेश जारी होने तक, इनमें से जो भी पहले हो, संविदा आधार पर वेतन बैंड-4 रु.37400-67000+ रु.8700/- के ग्रेड वेतन में निदेशक स्तर में माननीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग और पोत मंत्री (श्री नितिन जयराम गडकरी) के निजी सचिव के पद पर नियुक्त करते हैं।

देव राज शर्मा, अवर सचिव

दिनांक 13 अगस्त 2014

सं.ए-12023/3/2014-ई-1----राष्ट्रपति, हरियाणा सिविल सेवा के अधिकारी श्री यशेन्द्र सिंह को 15,600-39,100/- रूपए के वेतन बैंड-3 + 6600 रूपए के ग्रेड वेतन में दिनांक 11.07.2014 (पूर्वाह्न) से सह अवसानी/ प्रतिनियुक्ति आधार पर और अगले आदेशों तक अथवा जब तक मंत्री उनकी सेवा लेना चाहें अथवा कार्यालय से इस्तीफा दें जो भी पहले हो, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय और पोत परिवहन मंत्रालय में माननीय राज्य मंत्री (श्री कृष्णपाल गुर्जर) के अपर निजी सचिव के रूप में नियुक्त करते हैं ।

देव राज शर्मा, अवर सचिव

दिनांक 25 अगस्त 2014

सं.ए-12022/1/2009-ई-1----कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 04.07.2014 के कार्यालय ज्ञापन सं.5/6/2013-सीएस.1(यू) के तहत ग्रेड-1 (अवर सचिव) सेवा में नियुक्ति के लिए केन्द्रीय सचिवालय सेवा के (सीएसएस) अधिकारियों की वर्ष 2012 की चयन सूची में निम्नलिखित के नाम शामिल किए जाने के परिणामस्वरूप, राष्ट्रपति, इस मंत्रालय में इस समय तदर्थ आधार पर अवर सचिव के पद पर कार्य कर रहे सीएसएस के निम्नलिखित नियमित अनुभाग अधिकारियों को 04.07.2014 से नियमित आधार पर अवर सचिव के पद पर नियुक्त करते हैं:-

| क्र. सं. | अधिकारी का नाम       | सीएसएस नं. | चयन सूची में क्रमांक |
|----------|----------------------|------------|----------------------|
| 1        | श्री अशोक प्रसाद     | 7457       | 124                  |
| 2        | श्री मनीष कुमार सिंह | 7465       | 127                  |

2. अवर सचिव के ग्रेड में ऊपर उल्लिखित अधिकारियों की अनुमोदित सेवा की गणना केन्द्रीय सचिवालय सेवा नियमावली के नियम 2(ग)(iii) की शर्तों के अनुसार 1 जुलाई, 2012 से की जाएगी ।

देव राज शर्मा, अवर सचिव

## RAJYA SABHA SECRETARIAT

New Delhi-110001, the 1st December 2014

No.RS/20/1/2014/130-Perl.—On attaining the age of superannuation, Kumari Jiwan Lata, Assistant Director (E&T), retired from service with effect from the afternoon of 30<sup>th</sup> November, 2014.

S. RANGARAJAN, Jt. Dir.

## NATIONAL SECURITY COUNCIL SECRETARIAT

New Delhi, the 10th December 2014

No. A-19014/4/2009-Ad.—Consequent upon his selection to the post of Joint Director, the President is pleased to appoint Dr. Kanchan Lakshman, working as Deputy Director in the National Security Council Secretariat on contract basis, as Joint Director in the Pay Band of Rs.15,600—39,100/- plus Grade Pay of Rs.7,600/- on fresh contract for a period of five years or until further orders whichever is earlier, with effect from the forenoon of 07.12.2014.

S. KAMESHWAR, Dy. Secy.

## DEPARTMENT OF SPACE

Bangalore-560094, the 9th October 2014

No.A.12021/12/2014-Sec.I—The President is pleased to appoint Shri. S.Kumaraswamy a Member of Indian Administrative Service (AGMU:91), as Joint Secretary in the Department of Space, Bangalore with effect from the forenoon of 9<sup>th</sup> October 2014 and until further orders.

B.ANIL KUMAR, Dy. Secy.

The 10th December 2014

No.A.12011/8/2012-Sec.I—The President is pleased to appoint Shri.M.Ganesh, as Joint Director (Cost) in the Department of Space, Bangalore with effect from the forenoon of 30<sup>th</sup> October 2014.

B.ANIL KUMAR, Dy. Secy.

No.A.12011/9/2014-Sec.I—The President is pleased to appoint Shri.Chintamani Manohar Sane (IA&AS 1993), a Member of Indian Audit and Accounts Service (IA&AS 1993), as Joint Secretary (Finance) in the Department of Space, Bangalore with effect from the forenoon of 30<sup>th</sup> October 2014.

B.ANIL KUMAR, Dy. Secy.

## MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi-110001, the 9th December 2014

No. I-11014/09/2014-IPS.IV—In exercise of powers conferred under Sub-Rule (2) of 5 of the Indian Police Service (Cadre) Rules-1954, and with the concurrence of the UT Division of Ministry of Home Affairs and the Government of Karnataka, the Central Government hereby transfers Ms Nisha James, IPS (AGMUT: 2013) from AGMUT Cadre to the IPS Cadre of Karnataka on the ground of her marriage with Shri Anoop A. Shetty, IPS (KTK: 2013).

ARVIND GAUR, Under Secy.

## DISASTER MANAGEMENT DIVISION

New Delhi, the 11th December 2014

No. I-14020/3/2013-AD(CD). The President is pleased to appoint Shri Devender Kumar Shami, Deputy Fire Adviser in Directorate General Fire Services, Civil Defence and Home Guards, Ministry of Home Affairs, as Fire Adviser in the organization on promotion basis in the Pay Band-4 (Rs. 37,400 – Rs 67,000) with Grade Pay of Rs. 8,700/- with effect from 8<sup>th</sup> December, 2014 until further orders.

SANJAY AGARWAL, Dir.

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS  
(DEPARTMENT OF PERSONNEL AND TRAINING)

New Delhi, the 3rd December 2014

No. 39019/02/2014-Estt (B)—Consequent upon completion of her term of appointment, Smt. Rajni Razdan has demitted the office of Chairman, Union Public Service Commission with effect from the afternoon of 22<sup>nd</sup> November, 2014.

MANISHA BHATNAGAR, Under Secy.

MINISTRY OF COMMERCE & INDUSTRY  
(DEPARTMENT OF COMMERCE)

New Delhi, the 1st October 2010

No.48/2010(A-19011/36/2010-E.I)—The President is pleased to appoint Shri Anup K. Pujari, IAS(KN:80) as Director General of Foreign Trade under the Department of Commerce, Ministry of Commerce & Industry in the rank and pay of Joint Secretary with effect from the afternoon of 30<sup>th</sup> September, 2010 and until further orders, whichever event takes place earlier.

2. Powers exercised by the DGFT under the Foreign Trade (Development and Regulations) Act, 1992 shall be exercised by Shri Anup K. Pujari, DGFT.

N K LAKHANPAL, Under Secy.

New Delhi, the 26th October 2010

CORRIGENDUM

No. /2010(A-19011/36/2010-E.I)—In the notification of Govt. of India in the Department of Commerce No. A-19011/36/2010-E.I dated 1<sup>st</sup> October, 2010, published in Part I, Section II of the Gazette of India, the entries “whichever event takes place earlier” in last line of para 1 may be treated as “DELETED”.

S K SHARMA, Under Secy.

The 8th December 2010

No.58/2013(A-19011/36/2010-E.I)—The President is pleased to appoint Shri Anup K. Pujari, IAS(KN:80) as Director General of Foreign Trade under the Department of Commerce, Ministry of Commerce & Industry in the rank and pay of Additional Secretary with effect from the afternoon of 6<sup>th</sup> December, 2010 and until further orders.

2. Powers exercised by the DGFT under the Foreign Trade (Development and Regulations) Act, 1992 shall be exercised by Shri Anup K. Pujari, DGFT.

S K SHARMA, Under Secy.

New Delhi, the 28th September 2013

No. 36/2013(A-19011/36/2010-E.I)—The President is pleased to extend the tenure of Shri Anup K. Pujari, IAS(KN:80), Director General of Foreign Trade under the Department of Commerce, Ministry of Commerce & Industry for a period up to 31.3.2014, beyond 28.9.2013, in relaxation of the existing instructions.

G.B.UPADHYAY, Dy. Secy.

The 7th March 2014

No.15/2014(A-19011/36/2010-E.I)—The President is pleased to appoint Shri Anup K Pujari, IAS(KN:80) as DGFT, under the Department of Commerce, Ministry of Commerce & Industry in the rank and pay of Secretary with effect from the forenoon of 4.3.2014 on in-situ basis, by temporarily up-grading the post held by him.

G.B.UPADHYAY, Dy. Secy.

DEPARTMENT OF INDUSTRIAL POLICY AND PROMOTION

New Delhi, the September 2013

No. 1(7)/2014-Expl.—On attaining the age of superannuation, Shri T. R. Thomas, Chief Controller of Explosives, Petroleum and Explosives Safety Organisation (PESO), Department of Industrial Policy and Promotion, stands retired from Government service, with effect from the afternoon on 30th November, 2014.

RAJESH KUMAR, Under Secy.

## MINISTRY OF TEXTILES

New Delhi, the 11th December 2014

No. A-19011/12/2014-Estt.—The President is pleased to appoint Ms. Kamini Tandekar, (IES:2013) as Assistant Director in the Ministry of Textiles in PB-3 of Rs.15,600—39,100/- + Grade Pay of Rs.5,400/- w.e.f. the forenoon of 8<sup>th</sup> December, 2014 in the Ministry of Textiles, in pursuance of Department of Economic Affairs' Order No.T-22/2014 dated 5<sup>th</sup> December, 2014.

MATIAS BIHAN, Under Secy.

## MINISTRY OF STEEL

New Delhi, the 20th November 2014

No. 2(10)/2010-Estt.—In pursuance of DOP&T's O.M. No.3/1/2014-EO(MM-I), dated 20.06.2014, the President is pleased to appoint Shri Nikunj Kumar Srivastava IAS (MP:1998) as Private Secretary to Hon'ble Minister of Steel and Mines w.e.f. 10.11.2014 (F/N). in PB-4 Rs. 37,400—67,000/- + GP Rs. 8,700/- for the balance period of his central deputation i.e. upto 02.06.2018 at the level of Director or on co-terminus basis with the Minister or till he ceases to function as Private Secretary to the Minister or until further orders, whichever event occurs the earliest.

H.K. WADHWA, Under Secy.

## MINISTRY OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES

New Delhi, the 1st September 2014

No. A-22011/9/2013-Estt.—The President is pleased to appoint Shri Anil Kumar (CSL No. 7391) a regular section Officer of CSS to Grade-I (Under Secretary) of Central Secretariat Service on regular basis with effect from 04.07.2014 pursuant to his inclusion in Select List for the year 2012.

L. HAOKIP, Dir.

The 4th September 2014

No.A-11016/6/2014-Estt.—The President is pleased to appoint Shri Shashi Prakash Mishra, a non-official as First Personal Assistant in the Personal Establishment of Hon'ble Minister (MSME) in the scale of pay of Rs. 9,300—34,800/- (PB-2) with Grade Pay of Rs. 4,800/- in the Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises w.e.f. 30.05.2014.

2. The above appointment is co-terminus with the tenure of the Minister (MSME) or till the Minister desires to keep him in his Personal Establishment in the Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises, whichever is earlier.

L. HAOKIP, Dir.

The 5th September 2014

No.A-11016/6/2014-Estt.—The President is pleased to appoint Shri Gyan Chand Jain, a non-official as Additional Private Secretary in the Personal Establishment of Hon'ble Minister (MSME) in the scale of pay of Rs. 15,600—39,100/- (PB-3) with Grade Pay of Rs. 6,600/- in the Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises w.e.f. 07.06.2014.

2. The above appointment is co-terminus with the tenure of the Minister (MSME) or till the Minister desires to keep him in his Personal Establishment in the Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises, whichever is earlier.

L. HAOKIP, Dir.

The 12th September 2014

No. A-11016/6/2014-Estt.—The President is pleased to appoint Shri Vivek Shukla, a non-official as Assistant Private Secretary in the Personal Establishment of Hon'ble Minister (MSME) in the scale of pay of Rs. 9,300—34,800/- (PB-2) with Grade Pay of Rs. 4,800/- in the Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises w.e.f. the forenoon of 30.05.2014.

2. The above appointment is co-terminus with the tenure of the Minister (MSME) or till the Minister desires to keep him in his Personal Establishment in the Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises, whichever is earlier.

L. HAOKIP, Dir.

---

The 8th October 2014

No. A-11016/6/2014-Estt.(Pt.I)—The President is pleased to appoint Shri Govind Ram Jaiswal an officer of the State Government of Uttarakhand as Officer on Special Duty in the Personal Establishment of Hon'ble Minister (MSME) in the scale of pay of Rs. 15600-39100 (PB-3) with Grade Pay of Rs. 7600/- in the Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises w.e.f the forenoon of 08.10.2014.

2. The above appointment is co-terminus with the tenure of the Minister(MSME) or till the Minister desires to keep him in his Personal Establishment in the Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises, whichever is earlier.

L. HAOKIP, Dir.

---

The 29th October 2014

No. A-11016/6/2014-Estt.—The President is pleased to appoint Shri Suresh Singh, a non-official as Assistant Private Secretary in the Personal Establishment of Hon'ble Minister (MSME) in the scale of pay of Rs. 9,300—34,800/- (PB-2) with Grade Pay of Rs. 4,800/- in the Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises w.e.f the forenoon of 29.05.2014.

2. The above appointment is co-terminus with the tenure of the Minister(MSME) or till the Minister desires to keep him in his Personal Establishment in the Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises, whichever is earlier.

L. HAOKIP, Dir.

---

MINISTRY OF HEALTH & FAMILY WELFARE  
(DEPARTMENT OF HEALTH & FAMILY WELFARE)

New Delhi, the 26th July 2013

No. A.11013/1/2013-Estt. I(pt)—The President is pleased to appoint Ms. P Pandeewari, Grade III (DASS) of Directorate of Education, GNCT of Delhi, as 1<sup>st</sup> Personal Assistant to the Hon'ble Minister of State for Health and Family Welfare (Smt. Santosh Chowdhary) w.e.f. afternoon of 22.7.2013.

2. Appointment of Ms. P Pandeewari will be on co-terminus basis or till the Minister requires her services or until further order, whichever is earlier.

3. The terms of Appointment in respect of Ms. P Pandeewari shall be governed by the orders contained in DoPT's OM No.6/8/2009-Estt.(Pay.II) dated 17.6.2010

DHRUV CHAKRAVARTY, Under Secy.

---

The 11th November 2013

No. A.19013/15/2013-E.I—The President is pleased to appoint Shri Ramesh Chand Danday, IRS (IT:1994) as Director in the Department of Health & Family Welfare, for a period of five years with effect from the forenoon of 01.11.2013 or until further orders, whichever event takes place earlier.

DHRUV CHAKRAVARTY, Under Secy.

---

The 15th October 2013

No. A.11013/2/2013-Estt. I—In pursuance of Department of Personnel & Training Office Memorandum No.5/9/2013-EO (MM-I) dated 3.10.2013, the President is pleased to appoint Smt Kalpana Amar, Allied Services 1974, CSS-76 (Retired) as Private Secretary to the Minister of State for Health and Family Welfare (Smt. Santosh Chowdhary) at

Director level in (PB-4 Rs.37,400—67,000/- + GP Rs. 8,700/-) in the Ministry of Health & Family Welfare with effect from the forenoon of 10<sup>th</sup> October 2013 on co-terminus basis with the Minister or till she ceases to function as Private Secretary to the Minister or until further orders, whichever event occurs the earliest.

DHRUV CHAKRAVARTY, Under Secy.

---

The 21st November 2013

No. A.11013/2/2013-Estt. I—In continuation and partial modification of this Department's Notification of even number dated 15.10.2013, the date of appointment of Smt Kalpana Amar, Allied Services 1974, CSS-76 (Retired) as Private Secretary to the Minister of State for Health and Family Welfare (Smt. Santosh Chowdhary) may be read as "1.7.2013 (FN)" instead of "10.10.2013 (FN)"

2. This issues in pursuance of Department of Personnel & Training Office Memorandum No.5/9/2013-EO (MM-I) dated 11.11.2013.

DHRUV CHAKRAVARTY, Under Secy.

---

The 6th January 2014

No. A.19013/01/2014-Estt.I—Consequent upon his promotion to the Selection Grade (Deputy Secretary) of CSS on adhoc basis vide Department of Personnel & Training's Order No. 4/3/2013-CS.I(D) dated 12<sup>th</sup> December 2013, Shri Ishwar Singh, Grade-I (Under Secretary) of CSS is hereby appointed to the Selection Grade (Deputy Secretary) of CSS on adhoc basis with effect from 31.12.2013 (AN), initially for a period of one year or until further orders, whichever is earlier.

2. The adhoc appointment of Shri Ishwar Singh is subject to the various Court Cases/terms & conditions stipulated against para.2 of DoPT's Order dated. 12.12.2013, as referred above.

DHRUV CHAKRAVARTY, Under Secy.

---

The 14th February 2014

No. A.-11013/1/2009-Estt. I—The President is pleased to appoint ShriRajendra Kala, a retired Central Government Officer, as Assistant Private Secretary (PB-2, Rs. 9,300—34,800/- + Grade Pay Rs. 4,800/-) to the Hon'ble Minister for Health and Family Welfare (Shri Ghulam Nabi Azad) with effect from the forenoon of 1<sup>st</sup> November 2013.

2. Appointment of Shri Rajendra Kala will be on contract and on co-terminus basis or till the Minister requires his services or until further orders, whichever is earlier.

DHRUV CHAKRAVARTY, Under Secy.

---

The 24th February 2014

No. A.32013/04/2013-E.I—Consequent upon his promotion to the Selection Grade (Deputy Secretary) of CSS on adhoc basis vide Department of Personnel & Training's Order No. 4/3/2013-CS.I(D) dated 3<sup>rd</sup> February 2014, Shri S.K. Sharma, Grade-I (Under Secretary) of CSS is hereby appointed to the Selection Grade (Deputy Secretary) of CSS on adhoc basis with effect from 24.02.2014(FN), initially for a period of one year or until further orders, whichever is earlier.

2. The adhoc appointment of Shri Sharma is subject to the various Court Cases/ terms & conditions stipulated against para. 3 of DoPT's order dt. 03.02.2014, as referred above.

DHRUV CHAKRAVARTY, Under Secy.

---

The 4th March 2014

No.A-19011/02/2014-Estt.I—In pursuance of Department of Personnel and Training's Order No. 5/3/2014-EO (SM.I) dated 25<sup>th</sup> February 2014, the President is pleased to appoint Shri. GautamGuha, IAAS (81) as Additional Secretary and Financial Adviser in the Ministry of Health and Family Welfare.

2. Shri. Gautam Guha has assumed the charge of the post of Additional Secretary and Financial Adviser, Ministry of Health and Family Welfare, on the forenoon of 03<sup>rd</sup> March 2014.

DHRUV CHAKRAVARTY, Under Secy.

\_\_\_\_\_  
The 9th May 2014

No. A.19012/1/2014-E.I—The President is pleased to appoint Shri Kailash Chand Samaria, IAS (AM:1993) as Joint Secretary in the Department of Health and Family Welfare in the Pay Band of Rs. 37,400—67,000/- (PB-4) plus grade pay of Rs.10,000/- for a period of five years w.e.f. 09<sup>th</sup> May 2014 or until further orders, whichever is earlier.

DHRUV CHAKRAVARTY, Under Secy.

\_\_\_\_\_  
The 20th May 2014

No. A.32013/10/2014-Estt.I—Consequent on inclusion of their names in the Select List of Principal Private Secretary Grade of CSSS for the year 2013 vide DoPT's O.M. No.3/2/2013-CS.II(A) dated 30<sup>th</sup> April 2014, the President is pleased to appoint the following officers of the Gr. 'A' & 'B' (merged) of CSSS, as Principal Private Secretary of CSSS on regular basis with effect from the dates mentioned against each in the Ministry of Health and Family Welfare:

| <u>Name of the Officer</u> | <u>W.E.F</u>    |
|----------------------------|-----------------|
| i. Smt. Kiran Bala Luthra  | 30.04.2014 (AN) |
| ii. Shri N. Narayanan      | 08.05.2014 (FN) |

DHRUV CHAKRAVARTY, Under Secy.

The \_\_\_\_\_

30th May 2014

No. A.32013/13/2013-E.I—In pursuance of Department of Personnel and Training's Order No.3/1/2011-CS-I(D) dated 13<sup>th</sup> May 2014, the under mentioned officer of the Selection Grade (Deputy Secretary) of the Central Secretariat Service is appointed by promotion on ad hoc basis as Director in the Department of Health and Family Welfare in Pay Band 4 (Rs. 37,400—67,000/-) with grade pay of Rs. 8,700/- w.e.f. the forenoon of 13.05.2014, for a period of one year or until further orders, whichever is earlier.

| S.No. | Names S/Shri.               |
|-------|-----------------------------|
| 1.    | Mahendra Singh (CSL : 4582) |

DHRUV CHAKRAVARTY, Under Secy.

\_\_\_\_\_  
The 13<sup>th</sup> June 2014

No.A.32013/10/2014-Estt.I—Consequent on inclusion of his name in the Select List of Principal Private Secretary Grade of CSSS for the year 2013 vide DoPT's O.M. No.3/2/2013-CS.II(A) dated 30<sup>th</sup> April 2014, the President is pleased to appoint Shri H. K. Jain to the Principal Private Secretary Grade of CSSS on regular basis with effect from the forenoon of 06<sup>th</sup> June 2014 in the cadre of Department of Health and F.W.

DHRUV CHAKRAVARTY, Under Secy.

\_\_\_\_\_  
The 8th July 2014

No. A.32013/07/2014-E.I—The President is pleased to appoint Ms. Bindu Tewari, IRSME (1994), as Director in the Department of Health and Family Welfare, for a period of five years with effect from the forenoon of 08.07.2014 or until further orders, whichever event takes place earlier.

DHRUV CHAKRAVARTY, Under Secy.

The 10th July 2014

No. A.19012/3/2010-E.I—The President is pleased to appoint Shri. Arun Kumar Panda, IAS (OR:1984), Joint Secretary in the Department of Health and Family Welfare as Additional Secretary in the Department of Health and Family Welfare, w.e.f. the forenoon of 10.07.2014

DHRUV CHAKRAVARTY, Under Secy.

The 11th July 2014

No. A.32013/13/2014-E.I—The President is pleased to appoint Shri. Devesh Deval, IAS (MT:2004), as Deputy Secretary in the Department of Health and Family Welfare, for a period upto 20.02.2017 with effect from the forenoon of 10.07.2014 or until further orders, whichever event takes place earlier.

DHRUV CHAKRAVARTY, Under Secy.

The 17th July 2014

No. A.32013/12/2014-E.I—The President is pleased to appoint Shri. K.L. Sharma, CSS, Joint Secretary (in-situ) as Joint Secretary in the Department of Health and Family Welfare against the existing vacancy w.e.f. the afternoon of 11.07.2014.

DHRUV CHAKRAVARTY, Under Secy.

The 22nd July 2014

No. A.32013/9/2014-E.I—The President is pleased to appoint Shri Rajeev Kumar, IRSSE (1992) as Director in the Department of Health and Family Welfare, for a period of five years with effect from the forenoon of 21.07.2014, or until further orders, whichever event takes place earlier.

DHRUV CHAKRAVARTY, Under Secy.

The 25th July 2014

No. A-22012/02/2013-Estt.-I—The President is pleased to appoint Shri Sanjay Kumar of Central Secretariat Official Language Services as Assistant Director (OL) in the Ministry of Health & Family Welfare in the Pay Band-3( Rs. 15,600—39,100/- + Grade Pay of Rs. 5,400/-) with effect from the forenoon of 11.07.2014 for a period of one year or until further orders, whichever is earlier.

2. The promotion of the officer is purely on adhoc basis and will not confer any right to continue in the grade indefinitely or for inclusion in the Select List for regular promotion or to claim seniority etc.

DHRUV CHAKRAVARTY, Under Secy.

The 25th August 2014

No. A-11013/4/2014-Estt. I—The President is pleased to appoint Shri Gulshan Rai Virmani, PS in Delhi Development Authority, as Additional Private Secretary to the Minister for Health and Family Welfare (Dr Harsh Vardhan), in PB-3, Grade Pay Rs.6600/-, with effect from the forenoon of 11<sup>th</sup> June 2014.

2. Appointment of ShriGulshanRaiVirmaniwill be on co-terminus basis or till the Minister requires his services or until further order, whichever is earlier.

DHRUV CHAKRAVARTY, Under Secy.

The 27th August 2014

No. A-11013/2/2014-Estt. I—In pursuance of DoPT OM No.5/3/2014-EO(MM-I) dated 28.7.2014, the President is pleased to appoint Shri D N Singh, DANICS 1987, as Private Secretary to Hon'ble Minister for Health and Family Welfare (Dr.HarshVardhan) at the level of Director ( in PB-4 Rs. 37,400—67,000/- + GP Rs. 8,700/-) with effect from 19<sup>th</sup> August

2014(FN) for a period of five years or on co-terminus basis with the Minister or till he ceases to function as Private Secretary to the Minister or until further orders, whichever event occurs the earliest.

DHRUV CHAKRAVARTY, Under Secy.

The 9th September 2014

No. A.32013/02/2014-E.I (Pt.)—Consequent upon inclusion of her name in the Select List for the year 2012 for appointment to the Grade I (Under Secretary) of CSS on regular basis vide Department of Personnel & Training's Office Memorandum No. 5/6/2013-CS.I(U) dated 04<sup>th</sup> September 2014, the following ad-hoc Grade-I (Under Secretary) of CSS, presently posted in Department of Health and Family Welfare, Ministry of Health & Family Welfare, is included in the Select list of Grade-I (Under Secretary) of CSS on regular basis for the year mentioned against her name:-

| Sl. No. | Name of the Officer<br>(S/Sh./Smt./Ms.) | CSL No. | SL Year |
|---------|-----------------------------------------|---------|---------|
| 01      | Vandana Chaudhary                       | 8058    | 2012    |

2. The appointment of above mentioned officer to the Grade I (Under Secretary) on regular basis shall be subject to various terms and conditions stipulated in DoPT's O.M. No.5/6/2013-CS.I(U) dated 04.07.2014.

DHRUV CHAKRAVARTY, Under Secy.

The 7th October 2014

No. A.19012/3/2014-E.I—The President is pleased to appoint Shri Ali Raza Rizvi, IAS (HP:1988) as Joint Secretary in the Department of Health and Family Welfare in the Pay Band of Rs.37400—67000/- (PB-4) plus grade pay of Rs.10,000/- for a period of five years w.e.f. 1<sup>st</sup> October 2014 or until further orders, whichever is earlier.

DHRUV CHAKRAVARTY, Under Secy.

The 10th October 2014

No. A-32013/02/2014-ESTT.I—The President is pleased to appoint Ms. Sunita Dhaundiyal, Section Officer (CSL: 8558) of CSS of Ministry of Environment, Forests & Climate Change to Grade-I (Under Secretary) of CSS in the Ministry of Health and Family Welfare on ad-hoc basis, with effect from the forenoon of 1<sup>st</sup> October 2014 for a period upto 31.05.2015 or till the posts are filled up on regular basis, or until further orders, whichever is earlier, in pursuance of DOPT's Order No. 5/11/2014-CS.I(U) dated 19<sup>th</sup> September 2014.

2. The ad-hoc promotion of the officer is subject to terms and conditions, stipulated in the DoPT's Order referred above.

DHRUV CHAKRAVARTY, Under Secy.

No. A-32013/02/2014-ESTT.I—The President is pleased to appoint Shri Dilip Kumar Sahu, Section Officer (CSL: 8470) of CSS of Ministry of Defence to Grade-I (Under Secretary) of CSS in the Ministry of Health and Family Welfare on ad-hoc basis, with effect from the forenoon of 25<sup>th</sup> September 2014 for a period upto 31.05.2015 or till the posts are filled up on regular basis, or until further orders, whichever is earlier, in pursuance of DOPT's Order No. 5/11/2014-CS.I(U) dated 15<sup>th</sup> September 2014.

2. The ad-hoc promotion of the officer is subject to terms and conditions, stipulated in the DoPT's Order referred above.

DHRUV CHAKRAVARTY, Under Secy.

No. A-32013/02/2014-ESTT.I—The President is pleased to appoint Shri Dharminder Singh, Section Officer (CSL: 8744) of CSS of Ministry of Labour and Employment to Grade-I (Under Secretary) of CSS in the Ministry of Health and Family Welfare on ad-hoc basis, with effect from the forenoon of 1<sup>st</sup> October 2014 for a period upto 31.05.2015 or till the

posts are filled up on regular basis, or until further orders, whichever is earlier, in pursuance of DOPT's Order No. 5/11/2014-CS.I(U) dated 15<sup>th</sup> September 2014.

2. The ad-hoc promotion of the officer is subject to terms and conditions, stipulated in the DoPT's Order referred above.

DHRUV CHAKRAVARTY, Under Secy.

\_\_\_\_\_  
The 20th October 2014

No.A.32014/2/2014-Estt.I—Consequent upon inclusion of her name in the Select List of Gr. 'A' & 'B' (merged) of CSSS (PS) for the year 2012 (extended) in the cadre of Ministry of Health and Family Welfare under the zoning scheme, vide DOP&T's OM No. 4/8/2013-CS.II(A)(Part-I) dated 16<sup>th</sup> September 2014, the President is pleased to appoint Smt. Shashi Mahani, a regular Grade 'C' Stenographer to Grade 'A' & 'B' (merged) of CSSS under the Ministry of Health & Family Welfare on regular basis with effect from the forenoon of 17<sup>th</sup> October 2014.

DHRUV CHAKRAVARTY, Under Secy.

\_\_\_\_\_  
The 29th October 2014

No.A.32014/2/2014-Estt.I—Consequent upon inclusion of his name in the Select List of Gr. 'A' & 'B' (merged) of CSSS (PS) for the year 2012 (extended) in the cadre of Ministry of Health and Family Welfare under the zoning scheme, vide DOP&T's OM No. 4/8/2013-CS.II(A)(Part-I) dated 16<sup>th</sup> September 2014, the President is pleased to appoint Shri Shankar Paul, a regular Grade 'C' Stenographer to Grade 'A' & 'B' (merged) of CSSS under the Ministry of Health & Family Welfare on regular basis with effect from the forenoon of 27<sup>th</sup> October 2014.

DHRUV CHAKRAVARTY, Under Secy.

\_\_\_\_\_  
No.A.32014/2/2014-Estt.I—Consequent upon inclusion of his name in the Select List of Gr. 'A' & 'B' (merged) of CSSS (PS) for the year 2012 in the cadre of Ministry of Health and Family Welfare under the zoning scheme, vide DOP&T's OM No. 4/8/2013-CS.II(A) dated 26<sup>th</sup> May 2014, the President is pleased to appoint Shri Thenkholal Baite, a regular Grade 'C' Stenographer to Grade 'A' & 'B' (merged) of CSSS under the Ministry of Health & Family Welfare on regular basis with effect from the forenoon of 21<sup>st</sup> October 2014.

DHRUV CHAKRAVARTY, Under Secy.

\_\_\_\_\_  
The 3rd November 2014

No. A-19011/03/2014-E.I—The President is pleased to appoint Shri. Navreet Singh Kang, IAS (PB:1983), as Additional Secretary and Director General, Central Government Health Scheme, in the Department of Health and Family Welfare, w.e.f. the forenoon of 03.11.2014.

DHRUV CHAKRAVARTY, Under Secy.

\_\_\_\_\_  
No. A-38013/04/2014-Estt.I—On attaining the age of superannuation, Sh. N Vishwanath, Section Officer in the Department of Health & Family Welfare, has retired from Government service with effect from the afternoon of 31<sup>st</sup> October, 2014.

DHRUV CHAKRAVARTY, Under Secy.

\_\_\_\_\_  
The 7th November 2014

No. A-19012/4/2014-E.I—The President is pleased to appoint Ms. Dharitri Panda, ICAS (1987) as Joint Secretary in the Department of Health and Family Welfare in the Pay Band of Rs. 37,400—67,000/- (PB-4) plus grade pay of Rs. 10,000/- for a period of five years w.e.f. the forenoon of 7<sup>th</sup> November 2014 or until further orders, whichever is earlier.

DHRUV CHAKRAVARTY, Under Secy.

The 24th November 2014

No. A-11013/12/2014-Estt. I—In pursuance of DoPT OM No.5/4/2014-EO(MM-I) dated 20.11.2014, the President is pleased to appoint Dr. Amandeep Garg, IAS(HP:99), as Private Secretary to Minister for Health and Family Welfare (Shri J P Nadda) at the level of Director (in PB-4 Rs. 37,400—67,000/- + GP Rs. 8,700/-) with effect from 24<sup>th</sup> November 2014(FN) for a period of five years or on co-terminus basis with the Minister or till he ceases to function as Private Secretary to the Minister or until further orders, whichever event occurs the earliest.

DHRUV CHAKRAVARTY, Under Secy.

---

DIRECTORATE GENERAL OF HEALTH SERVICES

New Delhi, the 2nd August 2013

No. A-19020/02/2013-Admn.-I—Consequent upon recommendation of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Dr. Gyan Prakash Sharma as Director, FRSL, Ghaziabad under Directorate General of Health Services on direct recruitment basis with effect from the forenoon of 23<sup>rd</sup> July 2013.

JITENDER SINGH, Dy. Dir. (Admn.)

---

MINISTRY OF TRIBAL AFFAIRS

New Delhi, the 5th December 2014

No. 11036/13/2009-PCV—In partial modification of this Ministry's notification No. 11036/13/2009-PC&V dated 20.06.2014 and in terms of Section 5(1) of the Right to Information Act, 2005 hereby make the following amendment namely:-

- (a) In the "subject matter" against S.N. 4 (Shri Rajendra Prasad) after S. No. 7 the following shall be added:-

"8. Matters relating to High Level Committee"

- (b) The name of Smt. Namita Priyadarshee, Director (HLC), since transferred, indicated against S. No. 1 and entries relating thereto in the above said notification may be treated as deleted.

R.C. DHYANI, Under Secy.

---

No. 11036/13/2009-PCV—In partial modification of this Ministry's notification No. 11036/13/2009-PC&V dated 07.07.2014 and in terms of Section 19(1) of the Right to Information Act, 2005, for the existing entries against S. No.6 (Shri Gopal Sadhwani) under heading "Division/Section", the following shall be substituted, namely:-

"Administration/Parliament Coordination & Vigilance (PC&V)/Official Language (OL)/HLC"

2. The name of Shri Ashok Pai, Joint Secretary, indicated against S. No. 1 and entries relating thereto in the above said notification may be treated as deleted

R.C. DHYANI, Under Secy.

---

MINISTRY OF COMMUNICATIONS & INFORMATION TECHNOLOGY  
(DEPARTMENT OF POSTS)

New Delhi- 110001, the 12th September 2013

No. 3-6/2009-Admn.—On the basis of results of Combined Section Officers'/ Stenographers' (Gr.B/Gr.I) Limited Departmental Competitive Examinations 2009, 2010 & 2011 and in pursuance of Department of Personnel and Training's O.M.No.4/6/2013-CS.II(A) dated 22.08.2013, the President is pleased to appoint Shri S. A.Srikanth [Rank No.11], a regular PA of CSSS in Department of Posts as Private Secretary (PS) of CSSS for the Select List Year 2009 in the same department in the Pay Band PB-2 of Rs. 9,300—34,800/- with Grade Pay of Rs. 4,800/- with effect from 22.08.2013(F/N).

MANORANJAN SAMAL, Asstt. Dir. General (Admn.)

The 24th September 2013

No.3-2/2012-Admn.—On the basis of results of Combined Section Officers'/Stenographers' (Gr.B/Gr.I) Limited Departmental Competitive Examinations 2009, 2010 & 2011 and in pursuance of Department of Personnel and Training's O.M.No.4/6/2013-CS.II(A) dated 22.08.2013 and 05.09.2013, the President is pleased to appoint Ms. Reshma Sukhwani [Rank No.4], a regular PA of CSSS in the Ministry of Home Affairs as Private Secretary (PS) of CSSS for the Select List Year 2011 in Department of Posts in the Pay Band PB-2 of Rs. 9,300—34,800/- with Grade Pay of Rs. 4,800/- with effect from 12.09.2013(F/N).

MANORANJAN SAMAL, Asstt. Dir. General (Admn.)

MINISTRY OF RAILWAYS  
(RAILWAY BOARD)

New Delhi, the 3rd December 2014

No. E(GP)2012/3/2—The President is pleased to appoint the under mentioned 137 Group 'B' officers of Civil Engineering Department of Indian Railways belonging to different Zonal Railways as mentioned against each, to Group 'A'/Junior Scale of Indian Railway Service of Engineers (IRSE), with effect from 22.08.2014:-

PANEL FOR 2012—13

| S.No. | Name of Officer     | Railway |  |
|-------|---------------------|---------|--|
| 1     | S. VENKATAPATHY     | SR      |  |
| 2     | K.K.VERMA           | CR      |  |
| 3     | K.MARIAPPAN         | SR      |  |
| 4     | DHANESH KR. PATHAK  | NR      |  |
| 5     | MD. AKHTAR ALI      | ECR     |  |
| 6     | A.K. SHUKLA         | CR      |  |
| 7     | V.JANAKI RAMAN      | SR      |  |
| 8     | K.KALAISELVAN       | SR      |  |
| 9     | S.K.GHOSH           | SER     |  |
| 10    | GULAB CHAND         | DLW     |  |
| 11    | CH.MOHAN RAO        | ECOR    |  |
| 12    | JAYDIP CHAKRABORTY  | NFR     |  |
| 13    | M.A.R.NOEL          | SER     |  |
| 14    | P.BORDOLOI          | NFR     |  |
| 15    | A.D.MAURYA          | NR      |  |
| 16    | K.L.SEN             | SER     |  |
| 17    | A.KRUPAVARAM        | SWR     |  |
| 18    | ASHUTOSH KUMAR      | SER     |  |
| 19    | B.B.MAHARANA        | ECOR    |  |
| 20    | G.NARASIMHAN MURTHY | ECOR    |  |
| 21    | ANIL KUMAR PANDEY   | SECR    |  |
| 22    | Y.SRINIVASU         | ECOR    |  |
| 23    | P.K.MOHANTY         | ECOR    |  |
| 24    | R.D.U.M.RAO         | ECOR    |  |
| 25    | S.K.ACHARYA (II)    | ECOR    |  |
| 26    | A.SUBBA RAO         | SWR     |  |

| S.No. | Name of Officer       | Railway |                             |
|-------|-----------------------|---------|-----------------------------|
| 27    | R.K.JAIN              | NCR     |                             |
| 28    | S.K.SARANGI           | ECoR    |                             |
| 29    | ALOKE BHATTACHARJEE   | SER     |                             |
| 30    | RAJIB MONDAL          | SER     |                             |
| 31    | K.B.MUKHOPADHYAY      | SER     |                             |
| 32    | BADSAH SINGH          | ECR     |                             |
| 33    | MAHESH PD. SINGH      | ECR     |                             |
| 34    | CHIRANJIB KUMAR KUNDU | ER      |                             |
| 35    | ARVIND KUMAR SHARMA   | ECR     |                             |
| 36    | R.K. SAXENA           | CR      |                             |
| 37    | G.P. YADAV            | WCR     |                             |
| 38    | KHURSHID AZAM         | WR      |                             |
| 39    | ALOK MITTAL           | CR      |                             |
| 40    | S.CHAKRABORTY         | NFR     |                             |
| 41    | S.BISWAS              | NFR     |                             |
| 42    | P.S.RABINDRAN         | NFR     |                             |
| 43    | P.K.ROY               | NFR     |                             |
| 44    | R.C.PAUL              | NFR     |                             |
| 45    | B.DUTTA               | NFR     |                             |
| 46    | G.BANARJEE            | NFR     |                             |
| 47    | D.K. AMBASTHA         | ER      |                             |
| 48    | A.NARASIMHAN          | ICF     |                             |
| 49    | P.P.S. SISODIA        | WCR     |                             |
| 50    | SUDHIR PARIHAR        | WCR     |                             |
| 51    | A.SIVAKUMAR           | WR      |                             |
| 52    | ATHAR HUSSAIN         | WR      |                             |
| 53    | NETA PRASAD (SC)      | DLW     | Promoted against SC vacancy |
| 54    | S R BALA (SC)         | ER      | Promoted against SC vacancy |
| 55    | B N MANDAL (SC)       | SECR    | Promoted against SC vacancy |
| 56    | N ANJALIAH (SC)       | SCR     | Promoted against SC vacancy |
| 57    | D P SINGH (SC)        | NCR     | Promoted against SC vacancy |
| 58    | HARI LAL (SC)         | SECR    | Promoted against SC vacancy |
| 59    | H L KORI (SC)         | SECR    | Promoted against SC vacancy |
| 60    | M S ROY(SC)           | SER     | Promoted against SC vacancy |
| 61    | NIRANJAN DAS (SC)     | SER     | Promoted against SC vacancy |
| 62    | SURENDRA CH RAO (SC)  | SER     | Promoted against SC vacancy |
| 63    | A A DEKA (ST)         | NFR     | Promoted against ST vacancy |
| 64    | S K PATRO (ST)        | ECoR    | Promoted against ST vacancy |
| 65    | S RABINDRANATH (ST)   | SCR     | Promoted against ST vacancy |
| 66    | R SHIVKUMAR (ST)      | SWR     | Promoted against ST vacancy |

| S.No. | Name of Officer        | Railway |                             |
|-------|------------------------|---------|-----------------------------|
| 67    | CHANDRASEKHARA T S(ST) | SWR     | Promoted against ST vacancy |
| 68    | PREM SAGAR             | WR      |                             |
| 69    | N K BARANGE            | WR      |                             |
| 70    | NAVIN KUMAR            | WR      |                             |

PANEL FOR 2013-14

| S.No. | Name of Officer      | Railway |  |
|-------|----------------------|---------|--|
| 1     | U S PRASAD           | WR      |  |
| 2     | MANISH MALIK         | WR      |  |
| 3     | N.K.CHAUHARY         | NER     |  |
| 4     | K.K.PANDEY           | ECR     |  |
| 5     | N.K.SINGH            | NER     |  |
| 6     | N.SRINIVASA RAO      | SCR     |  |
| 7     | P.K.SINGH            | NER     |  |
| 8     | VIJAY KUMAR K        | SCR     |  |
| 9     | P.CHIRANJEEVI        | SCR     |  |
| 10    | NARENDRA KUMAR ARORA | SWR     |  |
| 11    | AVIJIT NAG           | ER      |  |
| 12    | K.K.VERMA            | SECR    |  |
| 13    | K.P.ABDUL RAHMAN     | SECR    |  |
| 14    | R.K.SINHA            | SECR    |  |
| 15    | ABHOY SINGH          | SECR    |  |
| 16    | DINESH PRASAD SINGH  | ECR     |  |
| 17    | VIJAY PRASAD         | ECR     |  |
| 18    | P.R.SINGH            | ECR     |  |
| 19    | KRISHNA KUMAR        | ER      |  |
| 20    | KRISHNA SINGH        | NER     |  |
| 21    | V.K.SRIVASTAVA       | NER     |  |
| 22    | ANIL KUMAR PATHAK    | ER      |  |
| 23    | IDRISH MOHAMMED      | WCR     |  |
| 24    | DEEPAK MUKE          | WCR     |  |
| 25    | D.C. DEWIVEDI        | NR      |  |
| 26    | P.S.NARAYAN          | WR      |  |
| 27    | P.K.VYAS             | WR      |  |
| 28    | R.K.SRIDHAR          | WR      |  |
| 29    | R.K.KAPOOR           | WR      |  |
| 30    | I.P.S.LODHI          | WR      |  |
| 31    | M.K.PATEL            | WR      |  |
| 32    | M.K.KUCLAURYA        | WR      |  |

|    |                           |      |                             |
|----|---------------------------|------|-----------------------------|
| 33 | V.P.SHRIVASTAVA           | WR   |                             |
| 34 | D.R.SHARMA                | NWR  |                             |
| 35 | ASHOK KUMAR ARYA          | NWR  |                             |
| 36 | P.K.AGNIHOTRI             | NWR  |                             |
| 37 | RAGHVENDRA GUPTA          | WR   |                             |
| 38 | C.S.HANSELIA              | WR   |                             |
| 39 | SATISH CHANDRA DUBEY      | NCR  |                             |
| 40 | MANOJ GOYAL               | WR   |                             |
| 41 | M.Z.A.SHAREEF             | SCR  |                             |
| 42 | RAVINDRA MEHRA            | NER  |                             |
| 43 | KULBIR SINGH (SC)         | NR   |                             |
| 44 | R.K.KUSHWAHA              | NR   |                             |
| 45 | RAJIV SAXENA              | NR   |                             |
| 46 | S.R. MEHMOOD              | NR   |                             |
| 47 | BALJIT SINGH              | NWR  |                             |
| 48 | RAJESH MAHAJAN            | NR   |                             |
| 49 | R.N.S.PARIHAR             | WCR  |                             |
| 50 | S.K.NAYAK (II)            | ECoR |                             |
| 51 | C.P.SINGH                 | SER  |                             |
| 52 | B.K.VERMA                 | NCR  |                             |
| 53 | N C MANDAL(SC)            | SER  | Promoted against SC vacancy |
| 54 | S S DAS (SC)              | NFR  | Promoted against SC vacancy |
| 55 | C V NAIK(SC)              | ECoR | Promoted against SC vacancy |
| 56 | DEVENDRA MOHAN SINGH (SC) | WR   | Promoted against SC vacancy |
| 57 | P GOPI (SC)               | ECoR | Promoted against SC vacancy |
| 58 | S K PIPLADIYA (SC)        | WR   | Promoted against SC vacancy |
| 59 | I PRABHAKARAN (SC)        | SWR  | Promoted against SC vacancy |
| 60 | MANOHARAN K (SC)          | SR   | Promoted against SC vacancy |
| 61 | RAJENDRAN K (SC)          | SR   | Promoted against SC vacancy |
| 62 | K KANAKA RAO (ST)         | SER  | Promoted against ST vacancy |
| 63 | K KISHAN (ST)             | SCR  | Promoted against ST vacancy |
| 64 | DINESHWAR SAI (ST)        | CR   | Promoted against ST vacancy |
| 65 | DIP SINGH CHAUHAN (ST)    | WR   | Promoted against ST vacancy |
| 66 | U C DAS (ST)              | NFR  | Promoted against ST vacancy |
| 67 | ALAGARSAMY S (SC)         | SR   | Promoted against SC vacancy |

2. The appointment of the above officers is, however, subject to the final outcome of OA No. 343/2014 in Hon'ble Central Administrative Tribunal, Principal Bench, New Delhi filed by Shri Saheb Singh.

LILY PANDEYA, Dir. Estt. (GC)  
(Railway Board)

New Delhi, the 8th December 2014

No.E(O)III-2014/RN/21—Consequent upon his permanent absorption in DMRC, Shri S. K. Sinha, Selection Grade officer of the Indian Railway Personnel Service (DOB: 29/02/1968, DITS: 20/09/93) has resigned from Railway service with effect from 27/01/2014.

P C GAJBHIYE, Secy.  
(Railway Board)

The 9th December 2014

No.E(O)III-2014/RN/22—Consequent upon his permanent absorption in DFCCIL Shri Adesh Sharma, SAG/ IRSE, (DOB: 10.06.57 & DITS: 15.01.81) has resigned from Railway service with effect from 17.10.2014(AN).

P C GAJBHIYE, Secy.  
(Railway Board)

---

#### MINISTRY OF SHIPPING

New Delhi—110001, the 4th December 2014

No. A-19011/10/2014-Estt.—The President is pleased to appoint Shri Rajive Kumar, IAS (UP:81) as Secretary in the Ministry of Shipping with effect from the Forenoon of 01.12.2014, until further orders.

ANURAG SHARMA, Under Secy.

---

#### MINISTRY OF ROAD TRANSPORT & HIGHWAYS

New Delhi, the 20th June 2014

No. A-12023/3/2014-E-I—The President is pleased to appoint Shri Kiran Pal Khatana, Senior Security Assistant in Rajya Sabha Secretariat as Assistant Private Secretary to Hon'ble Minister of State in the Ministry of Road Transport & Highways and Ministry of Shipping (Shri Krishan Pal Gurjar) in Pay Band-2 Rs. 9,300—34,800/- + Rs.4,800/- Grade Pay on co-terminus /deputation basis w.e.f. 20.6.2014 (F.N.) and until further orders or till Minister desires his services or demits the office whichever is the earliest.

D. R. SHARMA, Under Secy.

The 8th July 2014

No. A-12023/2/2014-E-I (Part)—The President is pleased to appoint Shri Atul Vijay Mandlekar, Drugs Inspector, Food & Drugs Administration, Government of Maharashtra, as Additional Private Secretary to Hon'ble Minister of Road Transport & Highways and Shipping (Shri Nitin Jairam Gadkari) in Pay Band-3 Rs.15,600-39,100/- + Rs. 6,600/- Grade Pay on co-terminus/deputation basis w.e.f. 8.7.2014 (F.N.) and until further orders or till the Minister desires his services or demits the office whichever is the earliest.

D. R. SHARMA, Under Secy.

The 14th July 2014

No. A-12023/2/2014-E-I—The President is pleased to appoint Shri Manoj P. Wadekar as Additional Private Secretary to Hon'ble Minister of Road Transport & Highways and Shipping (Shri Nitin Jairam Gadkari) in Pay Band-3 Rs.15,600—39,100/- + Rs. 6,600/- Grade Pay on co-terminus basis w.e.f. 03.06.2014 (F.N.) and until further orders or till the Minister desires his services or demits the office whichever is the earliest.

D. R. SHARMA, Under Secy.

The 8th August 2014

No. A-12023/2/2014-E-I—In pursuance of Department of Personnel & Training (Office of the Establishment Officer )'s O.M. No.1.2.2014-EO(MM-I) dated 8.8.2014, regarding appointment of Shri Vaibhav Dange, a non-Government

official (Private person) , the President is pleased to appoint Shri Vaibhav Dange as Private Secretary to Hon'ble Minister of Road Transport & Highways and Shipping (Shri Nitin Jairam Gadkari) at Director level in Pay Band-4 Rs. 37,400—67,000/- + Rs. 8,700/- Grade Pay on contract basis for a period of five years w.e.f. 29.05.2014 or on co-terminus basis with the Minister or till he ceases to function as Private Secretary to the Minister or until further orders, whichever event occurs the earliest.

D. R. SHARMA, Under Secy.

The 13th August 2014

No.A-12023/3/2014-E-I—The President is pleased to appoint Shri Yashendra Singh, an officer of Haryana Civil Service as Additional Private Secretary to Hon'ble Minister of State for Ministry of Road Transport & Highways and Shipping (Shri Krishan Pal Gurjar) in Pay Band-3 Rs.15,600—39,100/- + Rs. 6,600/- Grade Pay on co-terminus /deputation basis w.e.f. 11.7.2014 (F.N.) and until further orders or till Minister desires his services or demits the office whichever is the earliest.

D. R. SHARMA, Under Secy.

The 25th August 2014

No. A-12022/1/2009-E-I—Consequent upon inclusion of their names in the Select List for the year 2012 of the officers of the Central Secretariat Service (CSS) for appointment to Grade-I (Under Secretary) of the Service, vide Ministry of Personnel, Public Grievances & Pensions, Department of Personnel & Training's O.M.No.5/6/2013-CS.I(U) dated 04.07.2014, the President is pleased to appoint the following regular Section Officers of CSS who are presently working as Under Secretary in this Ministry on ad-hoc basis, as Under Secretaries on regular basis w.e.f. 04.07.2014:-

| S. No. | Name of the Officer     | CSL. No. | Sl. No. in the Select List |
|--------|-------------------------|----------|----------------------------|
| 1.     | Shri Ashok Prasad       | 7457     | 124                        |
| 2.     | Shri Manish Kumar Singh | 7465     | 127                        |

2. The approved service of the above mentioned officers in Grade of Under Secretary will count from 1<sup>st</sup> July, 2012 in terms of Rule 2 ( c ) (iii) of CSS Rule.

D. R. SHARMA, Under Secy.

मुद्रण निदेशालय द्वारा, भारत सरकार मुद्रणालय, एन.आई.टी. फरीदाबाद में  
मुद्रित एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 2014  
PRINTED BY DIRECTORATE OF PRINTING AT GOVERNMENT OF INDIA PRESS, N.I.T.  
FARIDABAD AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2014

www.dop.nic.in